



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23—जुलाई 29, 2011 (श्रावण 1, 1933)

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23—JULY 29, 2011 (SRAVANA 1, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 25 मई 2011

सं. ए-35018/2/2009-प्रशा.-II--इस कार्यालय की दिनांक 24.02.2011 की समसंख्यक कार्यालय अधिसूचना के क्रम में श्री अवधेश ठाकुर, आशुलिपिक, संघ लोक सेवा आयोग, को सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के स्टाफ अधिकारी के पद पर संशोधित वेतन ढांचा पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- सहित ग्रेड पे रु. 4,800/- (ग्रुप "ख" राजपत्रित) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति अवधि अगले 03 महीने अर्थात् 24.05.2011 से 23.08.2011 (दिनांक 23.05.2011 को तकनीकी ब्रेक देते हुए) की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की जाती है।

के. एम. शशिधरन  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-35018/2/2009-प्रशा.-II--इस कार्यालय की दिनांक 24.02.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री राजेश जोशी, आशुलिपिक ग्रेड "सी", (वैयक्तिक सहायक) संघ लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के स्टाफ अधिकारी के पद पर संशोधित वेतन ढांचा पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- सहित ग्रेड पे रु. 4,800/- (ग्रुप "ख" राजपत्रित) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि आगे 03 महीने अर्थात् 24.05.2011 से 23.08.2011 (दिनांक 23.05.2011 को तकनीकी ब्रेक देते हुए) की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की जाती है।

के. एम. शशिधरन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. ए-60011/27/2011-सू.अधि.अधिनियम प्रकोष्ठ (प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है :-

क्रम सं.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	विषय वस्तु	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम
1.	श्री एस. बी. सरोहा, संयुक्त सचिव (प्रशा., सामा.सत. एवं आर टी आई)	प्रशासन, लेखा और सतर्कता से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी सभी मामले जिनमें सं.लो.से.आ. के राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के सभी कार्मिक तथा स्थापना से संबंधित सभी सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी मामले शामिल हैं।	श्री के. एम. शशिधरन, अवर सचिव (प्रशा.-IV तथा सं.प. एवं का.अ.)
2.	श्री एस. बी. सरोहा, संयुक्त सचिव (प्रशा., सामा.सत. एवं आर टी आई)	सेवा नियमों/विनियमों तथा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम से संबंधित सभी नीतिगत मामले तथा सं.लो.से.आ. की सलाह/अनुशंसा के लिए प्राप्त संदर्भ, सं.लो.से.आ. की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मेलन सहित विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों से प्राप्त संदर्भ।	श्री मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव (सेवा-II)
3.	वाई. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव (से. I क एवं घ)	अनुशासनिक मामले (आयोग को भेजे गए), जिनमें दीर्घ शास्ति अधिरोपण शामिल है, से संबंधित सभी मामले	श्री एस. के. झा, उप सचिव (से.-I)
4.	वाई. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव (से. I क एवं घ)	अनुशासनिक मामले (आयोग को भेजे गए) जिनमें लघु शास्ति अधिरोपण और ग्रुप "ग" और "घ" पदों की पेंशन कटौती से संबंधित सभी मामले शामिल हैं।	श्री ए. के. मिश्रा, अवर सचिव (से.-I)
5.	श्री कमल भगत, संयुक्त सचिव (भ-II)	सिविल सेवा परीक्षाओं से संबंधित सभी मामले, परीक्षाओं से संबंधित नीतिगत मामले, गोपनीय शाखा से संबंधित मामले तथा सं.लो.से.आ. द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं/भर्ती परीक्षणों की व्यवस्था से संबंधित सभी मामले।	डॉ. कुलबीर सिंह, संयुक्त निदे. (प.)
6.	श्री कमल भगत, संयुक्त सचिव (भ-II)	केन्द्रीय पुलिस बल परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना-I तथा II, सम्मिलित रक्षा सेवा-I तथा II परीक्षा के संबंध में गोपनीय शाखा से सम्बद्ध मामलों सहित सभी मामले	श्री एस. के. डे, अवर सचिव (प.)
7.	श्री कमल भगत, संयुक्त सचिव (भ-II)	भारतीय वन सेवा परीक्षा, भूविज्ञानी परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा के संबंध में गोपनीय शाखा से सम्बद्ध मामलों सहित सभी मामले तथा परीक्षा शाखा से संबंधित अन्य विविध मामले।	श्रीमती पुष्पा बिष्ट, अवर सचिव (प.)
8.	श्री कमल भगत, संयुक्त सचिव (भ-II)	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, इंजी. सेवा परीक्षा, भा.आ.से./भा.सां.से. परीक्षा तथा अनु. अधि./आशुलिपिक ग्रेड "ख", सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में गोपनीय शाखा से संबंधित मामलों सहित सभी मामले।	श्री चमन लाल गुलेरिया, अवर सचिव (प.)

के. एम. शशिधरन  
अवर सचिव (प्रशा.)

## केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. डीपी/पर्स-1/2011/2140/3/69/2011-पर्स-1--राष्ट्रपति, श्री अरनब घोष, पुलिस उपाधीक्षक (डीईबी), पश्चिम बंगाल पुलिस जिला नाडिया को दिनांक 17.06.2011 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक में से जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. 2/54/10-प्रशासन/134805--सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा आयोग में सहायक, श्रीमती दविन्दर कौर को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के साथ तदर्थ आधार पर दिनांक 05 जुलाई, 2011 से छः माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 2007 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

आर. एन. नायक

विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)

सं. 2/31/08-प्रशासन/134806--सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा आयोग में सहायक, श्रीमती हरजीत कौर को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के साथ तदर्थ आधार पर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से छः माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 2007 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

आर. एन. नायक

विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. ई-16013/आर.आर.व.भा.पु.से./आ.म./कार्मिक-1/191--राष्ट्रपति महोदय, श्री आर. आर. वर्मा भा.पु.से. (बिहार:1978) को दिनांक 01.07.2011 के (अपराह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

इन्द्रजीत कौर

निदेशक/पुलिस

दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. ई-16013/डॉ.क.सि./अ.म./2010/कार्मिक-1/193--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, डॉ. कश्मीर सिंह, भा.पु.से. (उ.प्र.:1978) दिनांक 30.06.2011 के (अपराह्न) से अपर महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

इन्द्रजीत कौर

निदेशक/पुलिस

लोकरनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान

दिल्ली-110085, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 03/10/2008-एलएनजेएन एनआईसीएफएस--राष्ट्रपति श्री संकल्प आनंद को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), दिल्ली में दिनांक 09 जून, 2011 (पूर्वाह्न) से व्याख्याता (समाजशास्त्र) के पद पर ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ग्रुप ए शुरुआत) सहित वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- में नियुक्त करती है।

कमलेन्द्र प्रसाद

निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जून 2011

सं. ओ.दो.-4455/2011-कार्मिक-डीए-3--सरकारी सेवा से बिना पेंशन के त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, 85 बटालियन, के.रि.पु.बल के श्री उमेश कुमार रघुवंशी, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-4455) ने महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, नई दिल्ली अर्थात् अपने घोषित मुख्यालय से किसी अन्य स्थान पर जिसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 31.05.2011 (अपराह्न) से त्याग दिया है। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.05.2011 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. ओ.दो.-3873/11-कार्मिक(एम.ओज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. अमित सिंह जसवाल को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (दंत चिकित्सक) (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 28.06.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें कम्पोजिट आस्पताल, के.रि.पु.बल, सिलचर, में तैनात किया जाता है।

आर. एन. मिश्रा

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. ओ. दो.-6395/2011-कार्मिक (डी.ए.5)--सरकारी सेवा से स्वेच्छिक-सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 04.12.2010 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री पी. के. हरिदर्शन, सहायक कमाण्डेन्ट (आई. आर.एल.ए.-6395) 66 बटा. के.रि.पु.बल, ने दिनांक 01.05.2011 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.05.2011 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

धनबाद, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. विधि/जी 22/11/01--मै, सतीश पूरी, जो मुख्य खान निरीक्षक और खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदाभिहित हैं, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 75 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों के आधार पर और इस विषय पर पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिकांश करते हुए, इस निदेशालय के सभी अधिकारियों को, जो मुख्य खान निरीक्षक के अधीनस्थ हैं और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनको सम्बन्धित निरीक्षक अधिकारिता के भीतर जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन घोषित की गई है किसी भी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने के लिए साधारण प्राधिकृत करता हूँ।

सतीश पूरी  
मुख्य खान निरीक्षक  
और खान सुरक्षा महानिदेशक

खान मंत्रालय  
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 30 जून 2011

सं. ए-19011/269/2007-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस. पी. गोयल, क्षेत्रीय खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर में दिनांक 20.06.2011 (पूर्वाह्न) से खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. ए-19011/501/2011-स्था.ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री निरंजन कुमार, को भारतीय खान ब्यूरो, गोवा में

दिनांक 13.06.2011 (पूर्वाह्न) से सहायक प्रशासन अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. दासगुप्ता  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. 20/3(5)/2010-सीसीएस/24--राष्ट्रपति, इस विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के स्टाफ संपर्क अधिकारी (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), श्री बी. जगन मोहन राव को दिनांक 20.06.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुम्बई में प्रशासन अधिकारी-III (वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाक्को  
अवर सचिव

सं. 20/3(5)/2010-सीसीएस/25--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के श्री जी. शंकरन, उप स्थापना अधिकारी (वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) दिनांक 31.05.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

सी. डी. चाक्को  
अवर सचिव

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. आरआरकेट/प्रशा./2010/भ-805/748--भारत के राष्ट्रपति, निम्नांकित कर्मचारियों को पदोन्नति पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई ग्रेड, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन तथा तिथि से नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	पदोन्नति ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	दिनांक से (पूर्वाह्न)
1	2	3	4	5
	डॉ./सर्वश्री/ श्रीमती			
1.	सी. पी. सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-)	01.07.10
2.	जे. एस. पाखरे	--यथा--	--यथा--	01.07.10
3.	एम. के. सक्सेना	--यथा--	--यथा--	02.07.10



1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4.	भुपिन्दर सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	वैज्ञानिक अधिकारी-ई (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-)	01.07.10	37.	मांगीलाल इकवाले	वैज्ञानिक अधिकारी-सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	01.07.10
5.	एस. पी. राम	--यथा--	--यथा--	01.07.10	38.	मोहम्मद मुख्तार	--यथा--	--यथा--	01.07.10
6.	खगेश्वर साहू	--यथा--	--यथा--	05.07.10	39.	सहदेव सूर्यवंशी	--यथा--	--यथा--	01.07.10
7.	हिमांशु सिंघल	--यथा--	--यथा--	01.07.10	40.	राम कुमार	--यथा--	--यथा--	01.07.10
8.	एम. के. स्वामी	--यथा--	--यथा--	01.07.10	41.	विजय कुमार	--यथा--	--यथा--	01.07.10
9.	पी. डी. लट्टे	--यथा--	--यथा--	01.07.10	42.	नागेश्वर राव पोताना	--यथा--	--यथा--	01.07.10
10.	उमाकांत श्रीवास्तव	--यथा--	--यथा--	01.07.10	43.	अरूप रतन जाना	--यथा--	--यथा--	01.07.10
11.	मनीष बागरे	--यथा--	--यथा--	01.07.10	44.	एस. के. नाथ	--यथा--	--यथा--	01.07.10
12.	संजीव रामटेके	--यथा--	--यथा--	01.07.10	45.	चिराग भाई पाटीदार	--यथा--	--यथा--	01.07.10
13.	एस. जी. गोस्वामी	--यथा--	--यथा--	01.07.10	46.	अखिलेश त्रिपाठी	--यथा--	--यथा--	01.07.10
14.	आर. एस. सैनी	--यथा--	--यथा--	01.07.10	47.	आलोक सिंह	--यथा--	--यथा--	01.07.10
15.	शंकर लाल	--यथा--	--यथा--	01.07.10	48.	के. बी. ए. एन. पी. एस. कुमार	--यथा--	--यथा--	01.07.10
16.	आर. के. अरोरा	--यथा--	--यथा--	01.07.10	49.	एल. बी. राणा	वैज्ञानिक सहायक-ई (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	तकनीकी अधिकारी-डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	01.07.10
17.	वी. के. शर्मा	--यथा--	--यथा--	01.07.10	50.	बिजु एम. जी.	वैज्ञानिक अधिकारी-एसबी (पीबी-2, रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-)	वैज्ञानिक अधिकारी-सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	01.07.10
18.	सुरेन्द्र यादव	--यथा--	--यथा--	01.07.10	51.	सुजन कर	--यथा--	--यथा--	01.07.10
19.	अनिरुद्ध बोस	--यथा--	--यथा--	01.07.10	52.	रियाज़ अहमद खान	--यथा--	--यथा--	01.07.10
20.	नितिन लुलानी	--यथा--	--यथा--	01.07.10	53.	तुषित बंसोड	--यथा--	--यथा--	01.07.10
21.	अब्दुलहीम	--यथा--	--यथा--	01.07.10	54.	दीपचंद	--यथा--	--यथा--	01.07.10
22.	ए. के. गुप्ता	--यथा--	--यथा--	01.07.10	55.	ओ. पी. जोशी	वैज्ञानिक सहायक-डी (पीबी-2, रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-)	तकनीकी अधिकारी-सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	01.07.10
23.	गोरखनाथ तिवारी	वैज्ञानिक अधिकारी-सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	वैज्ञानिक अधिकारी-डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	01.07.10	<p style="text-align: right;">बी. के. जेना मुख्य प्रशासनिक अधिकारी</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">क्रय और भण्डार निदेशालय</p> <p style="text-align: center;">मुम्बई-400094, दिनांक 5 जुलाई 2010</p> <p>सं. क्रभनि/07019/भर्ती2935--निदेशक, क्रय और भण्डार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री पी. वी. एस. सुब्रमण्यम्, वरिष्ठ भण्डारी (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,200/-), हैदराबाद क्षेत्रीय भण्डार एकक (हैक्षेभंए), क्रभनि, हैदराबाद को सहायक भण्डार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड</p>				
24.	वी. के. दूबे	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
25.	रमाकान्त महाकुड़	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
26.	जितेन्द्र कुमार	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
27.	सोनिका तनवानी	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
28.	राहुल अग्रवाल	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
29.	गुरुप्रीत सिंह	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
30.	मुहम्मद तय्यब	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
31.	एस. के. अग्रवाल	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
32.	हेमन्त कृष्णा	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
33.	अमर सिंह	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
34.	नरेन्द्र भरद्वाज	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
35.	एस. बी. कोकिल	--यथा--	--यथा--	01.07.10					
36.	कमल सिंह	--यथा--	--यथा--	01.07.10					

वेतन रु. 4,800/- में, उसी एकक में, दिनांक 28 जून, 2011 के पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज  
प्रशासनिक अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/526--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्री बी. सत्यनारायण, सहायक लेखा अधिकारी को रु. 5,400/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में दिनांक 01.07.2011 से 31.08.2011 तक अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्व हो तदर्थ आधार पर स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/527--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/486 दिनांक 25.06.2011 के क्रम में, श्री वी. भरत भूषण, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 20.07.2011 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/528--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/485 दिनांक 26.06.2011 के क्रम में श्रीमती जे. स्वरूपा रानी, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 13.06.2011 तक बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/529--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती पी. वी. एस. फनि श्री, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में दिनांक 01.07.2011 से 31.08.2011 तक अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्व हो तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/530--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्री एस. कोटेश्वर राव, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में दिनांक 01.07.2011 से 31.08.2011 तक अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्व हो तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.-I/04/06/531--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती डी. वैजयंती माला, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में दिनांक 01.07.2011 से 31.08.2011 तक अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्व हो तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 22 जून 2011

सं. इंगांपअकॉ/पीएफ/11013/10284/2011-भर्ती--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में श्री एस. सेंगोदूवेल को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में प्रारंभिक वेतन रु. 27,630/- में रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित दिनांक 09.05.2011 के पूर्वाह्न से अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. इंगांपअकॉ/पीएफ/11013/10290/2011-भर्ती--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में श्री आर. रघुनाथ को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में प्रारंभिक वेतन रु. 21,000/- में रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित दिनांक 27.05.2011 के पूर्वाह्न से अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स दानी चिट एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 मार्च 2011

सं. 560 (3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00188--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा

(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दानी चिट एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बूपा इंडिया होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 मई 2011

सं. 560 (5)/184608--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बूपा इंडिया होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एक्जीक्यूटिव कनेक्शन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 जून 2011

सं. 560 (3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00100--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्जीक्यूटिव कनेक्शन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिक्स्थ डाईमेंशन मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 जून 2011

सं. 560 (3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00577--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिक्स्थ डाईमेंशन मल्टीमीडिया प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जरमेट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. 560 (3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जरमेट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नीतमा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/24378--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नीतमा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विद्याज्योति टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/103988--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विद्याज्योति टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560 (5)/050934--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स इन्वेस्ट राईट फाईनेन्शियल सर्विसेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आर. एस. इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/104663--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. एस. इन्फोकॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नी. आईएम. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/125812--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नी. आईएम. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स केचअस कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/161785--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केचअस कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जिप कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/164881--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिप कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ट्रिनिटी होर्न इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/170576--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रिनिटी होर्न इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एलिगेटर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/181363--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एलिगेटर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सोम फ्लेवर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/090813--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि



मैसर्स आईकॉल कोम्युनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अरिहन्त ऑटोमेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/079087--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरिहन्त ऑटोमेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स राम डिफेन्स सिस्टम्स एण्ड स्पोर्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/206745--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राम डिफेन्स सिस्टम्स एण्ड स्पोर्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मनु पाईप लाईन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/036467--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मनु पाईप लाईन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शार्प लाईन इलैक्ट्रो सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/027390--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शार्प लाईन इलैक्ट्रो सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्लूबोनेट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560 (5)/177338--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्लूबोनेट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पॉवर इण्डिया विंड-प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 8 जुलाई 2011

सं. एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/से. 560/2011/ 00124--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पॉवर इण्डिया विंड-प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 30 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560 (3)/866--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित



कम्पनियों के नाम नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	033142	मैसर्स रथ कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
2.	011378	मैसर्स दुर्गेश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	011377	मैसर्स भैरों बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	011376	मैसर्स च्वाइस प्रिमिसेज प्राईवेट लिमिटेड
5.	013377	मैसर्स बिजवारी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
6.	020142	मैसर्स एक्वाजेम फार्मा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	012965	मैसर्स आर. जी. प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	019682	मैसर्स लाईफ टाईम सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	025550	मैसर्स अभिनन्दन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	007398	मैसर्स बीएमबी म्यूजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	032762	मैसर्स बंसल रोड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	029953	मैसर्स आन्ट स्पीड इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
13.	026619	मैसर्स ग्रीन पैथलैब एण्ड डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
14.	001968	मैसर्स टॉक एण्ड कं. प्राईवेट लिमिटेड
15.	017632	मैसर्स चिरागमनी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	028202	मैसर्स थोटस्पान इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
17.	027356	मैसर्स आर स्कवायर ट्रेडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
18.	025322	मैसर्स अनुकृति ट्रेड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	032498	मैसर्स इवेंटस कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	001878	मैसर्स उदयपुर खनिज उद्योग प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 30 जून 2011

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560 (5)/867--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	023985	मैसर्स माही सिमेन्ट बांसवाडा लिमिटेड
2.	012898	मैसर्स वेन्टेज जेम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	011026	मैसर्स स्ट्रिप्स एण्ड ग्रिप्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
4.	007458	मैसर्स दक्ष सीमेन्ट एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	005855	मैसर्स कृष्णा कोम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	024247	मैसर्स सिल्वर साईन कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
7.	013094	मैसर्स स्वास्तिक बेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड
8.	016854	मैसर्स चौफ्ला कम्प्यूटर्स ईवेट लिमिटेड
9.	012372	मैसर्स यू. एस. प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	015554	मैसर्स माधव कॉटफेब इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
11.	003660	मैसर्स एम. एल. बहेती होस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
12.	000347	मैसर्स राजस्थान इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	007409	मैसर्स मान कोम्युनिकेशन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	009393	मैसर्स शुभम इनफिन्को प्राईवेट लिमिटेड
15.	013276	मैसर्स एस. एम. फिनकोन फोरेस्ट्स लिमिटेड
16.	005394	मैसर्स जैसलमेर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
17.	002094	मैसर्स एम. बी. लोहिया एण्ड सन्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	004521	मैसर्स किरन फाइबर एण्ड फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	023172	मैसर्स रीवा मिनकम मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	023211	मैसर्स स्पेस स्टार मोशन पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	012924	मैसर्स प्रूडेन्ट फूड्स एण्ड प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	021592	मैसर्स औरा ई-सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	014827	मैसर्स सुप्रीम मेक एण्ड फेब प्राईवेट लिमिटेड
24.	023077	मैसर्स भार्गवी बिल्डहोम्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	013703	मैसर्स प्रैंड्स ऑफसेट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	003914	मैसर्स सिंघल रेफ्रीजरेशन प्राईवेट लिमिटेड
27.	026078	मैसर्स जेब इनोवेशन एण्ड एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
28.	015161	मैसर्स थार फूड एण्ड बेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड
29.	007637	मैसर्स प्राईम प्लास्टो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	024350	मैसर्स निओ प्राईम कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	023777	मैसर्स वेद प्रकाश लोहिया प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
32.	020856	मैसर्स जयपुर एक्सप्रेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
33.	018144	मैसर्स चाँदखेड़ी एग्रो सेल्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
34.	023631	मैसर्स बाबू राजेश लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	023119	मैसर्स शिवशक्ति टावर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	023276	मैसर्स डेकोर इनटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
37.	022068	मैसर्स डिम्पल ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	005588	मैसर्स अलवर फार्मर्स मशीनरी हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
39.	019386	मैसर्स अपराईजिंग इन्वोयेन्स एण्ड मार्केटिंग कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	001951	मैसर्स संचेती स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	002029	मैसर्स सॉकिया प्रोडक्शन्स लिमिटेड
42.	005683	मैसर्स कुबेर सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	005945	मैसर्स टैगोर कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
44.	007404	मैसर्स फाईवस्तार कलर लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	012793	मैसर्स अर्सी रेजीडेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
46.	012964	मैसर्स विक्रम ग्रानीमार्मो प्राईवेट लिमिटेड
47.	013794	मैसर्स बोन्टोन पोलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
48.	015141	मैसर्स अजय मोटर लीज प्राईवेट लिमिटेड
49.	015277	मैसर्स रॉयल स्वीम एण्ड जिम सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
50.	015853	मैसर्स मतवासन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	016005	मैसर्स गंगोत्री डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	016038	मैसर्स नाकोडा भैरव डेयरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	016341	मैसर्स थार सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
54.	016392	मैसर्स पिक्सलेट ग्रेनीएक्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	017214	मैसर्स हाडोती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
56.	017823	मैसर्स राधिका कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
57.	018603	मैसर्स धनजी सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	018758	मैसर्स झून्थरा कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	019294	मैसर्स आदर्श बायो हर्बल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
60.	019626	मैसर्स वेलहर्ब ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	020418	मैसर्स ओमेरजेब इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
62.	020620	मैसर्स विजन बेजरेजेज प्राईवेट लिमिटेड
63.	021178	मैसर्स जगदीश प्रसाद एण्ड सन्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
64.	021721	मैसर्स ओपन अर्थ एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड
65.	022064	मैसर्स स्ट्राइड विजन ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	022386	मैसर्स यू डी फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
67.	022410	मैसर्स शिव गंगा इन्कलेव प्राईवेट लिमिटेड
68.	022432	मैसर्स हाई लाइफ कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	022433	मैसर्स ब्राइट वेल्यू कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	022435	मैसर्स डौलफिन कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	022725	मैसर्स क्रिएटिव बिल्डमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
72.	023279	मैसर्स अपेक्स इन्फोसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
73.	024066	मैसर्स अमित मार्मेटिक प्राईवेट लिमिटेड
74.	024083	मैसर्स सपरेव आउटसोर्सिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	024085	मैसर्स किंग्स अम्पायर प्रापर्टीज एण्ड कॉलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	024937	मैसर्स भिक्षु इंजिनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	024831	मैसर्स निखिलम डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	010960	मैसर्स श्रीयम क्रिशन्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	026242	मैसर्स साथ साथ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	022819	मैसर्स कृष्णा रामव कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	024515	मैसर्स हार्बर सेक्युरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
82.	009390	मैसर्स फुलवानी ओवरसीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	019405	मैसर्स श्री रंग बाडी बालाजी रियलइस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
84.	014452	मैसर्स पारस गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	005553	मैसर्स त्रिरूपति ग्लेजर प्राईवेट लिमिटेड
86.	008260	मैसर्स नाटानी ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	023559	मैसर्स शेखावाटी किसान एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
88.	024092	मैसर्स मास्कॉट बिल्डइस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
89.	010408	मैसर्स टाटिया कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
90.	025200	मैसर्स लेजर रिटेल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
91.	018488	मैसर्स सीता राम डवलपर्स एण्ड कॉलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	002237	मैसर्स एमजीएम सेक्यूरिटीज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
93.	001590	मैसर्स शर्मा एक्स-रे एण्ड डायग्नोस्टिक क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
94.	016223	मैसर्स कालीन्दी हैरीटेज एण्ड हॉस्पिटलटी प्राईवेट लिमिटेड
95.	019944	मैसर्स दुर्गा शक्ति मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	019472	मैसर्स क्वाडरा मल्टीटेक प्राईवेट लिमिटेड
97.	021946	मैसर्स जाट बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड
98.	003532	मैसर्स चिराग सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	005928	मैसर्स स्पान फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	019263	मैसर्स समीक्षा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
101.	014812	मैसर्स राम गढ रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	004857	मैसर्स जे आर एलोई कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	004710	मैसर्स हिमांशु कन्डक्टर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
104.	010852	मैसर्स त्रिपुरा सीमेंट लिमिटेड
105.	003573	मैसर्स नवरंग सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	006020	मैसर्स भाग्यफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	011694	मैसर्स सोनल डायमेण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	026140	मैसर्स थार एयरवेज ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
109.	024090	मैसर्स मास्ट्रो प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
110.	023558	मैसर्स शेखावाटी बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
111.	025174	मैसर्स कृति मेसेंजर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
112.	019489	मैसर्स ऐस फिनकन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	016244	मैसर्स आईडिया2नेट इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
114.	024926	मैसर्स श्री खाटूश्याम इन्फ्राटेक इण्डिया लिमिटेड
115.	006640	मैसर्स जाका डिजाईन्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सुहास ट्रेक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00127/056163/560(3)/400-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुहास ट्रेक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कनकतेज आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00138/199056/560(3)/403-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कनकतेज आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स व्हाईट ओक फर्निचर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00347/189456/560(3)/407-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स व्हाईट ओक फर्निचर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फर्स्ट ऑप्शन टेलिफिल्म्स टर्जिणिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00341/119265/560(3)/406-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फर्स्ट ऑप्शन

टेलिफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रोबोसॉफ्ट ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00330/151257/560(3)/407-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोबोसॉफ्ट ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पंचरत्न अँग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00291/117515/560(3)/405-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पंचरत्न अँग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सन्ता मोनिका हौटेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00083/175854/560(3)/404-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सन्ता मोनिका

हौटेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स स्काव व्हेली हौटेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00096/172545/560(3)/411-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्काव व्हेली हौटेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ताहोई हौटेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00099/172693/560(3)/410-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ताहोई हौटेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रामा मल्टीको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00106/138592/560(3)/412-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रामा मल्टीको एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स दन-फौस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00206/153657/560(3)/404-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दन-फौस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बैनक्रॉफ्ट एण्ड कंपनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00211/002630/560(3)/408-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बैनक्रॉफ्ट एण्ड कंपनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रैलिन प्रोजेक्ट फायनेन्स  
कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00224/096427/560(3)/396-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रैलिन प्रोजेक्ट फायनेन्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लोडेक्स मशिनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00232/189897/560(3)/395-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लोडेक्स मशिनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रास्ता मैनेजमेंट कंसलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00247/184264/560(3)/393-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रास्ता मैनेजमेंट कंसलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

-----  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बीरबल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग  
कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00240/023684/560(3)/394-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बीरबल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स न्यू सेंचूरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00264/122277/560(3)/399-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यू सेंचूरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स तारा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00275/127063/560(3)/398-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तारा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सी. एम. शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00323/141493/560(3)/397-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सी. एम. शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्रागपुर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 00020/123769/560(3)/400-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रागपुर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इंदू कंसट्रक्शन एण्ड टेकनिकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के  
विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00138/0460521/560(3)/442-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इंदू कंसट्रक्शन एण्ड टेकनिकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री शिपींग क्लियरिंग एण्ड फॉरवर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00144/184477/560(3)/443-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री शिपींग क्लियरिंग एण्ड फॉरवर्डिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पद्मावती बालाकृष्णन  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बीआरवी इंडिया एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00126/171254/560(3)/444-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बीआरवी इंडिया एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न



सं. 00031/035821/560(3)/458--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स राजस्थान पाईप्स





सं. 00074/134776/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कौउगर माइंडवेयर

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स प्लेनेट वॉचेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00082/100459/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्लेनेट वॉचेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हाजी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00151/119972/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हाजी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साईटिफिक-एटलांट इंडिया सेल्स एण्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00054/154321/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साईटिफिक-एटलांट इंडिया सेल्स एण्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स क्वॉनटम इक्व्यूटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00014/181480/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्वॉनटम इक्व्यूटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बैटरफ्लाई ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 00031/303193/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बैटरफ्लाई ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विजया एन. खंडारे  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 30 जून 2011

सं. आरओसी/पैट/560(5)/ईईएस-2011/2532--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	नम्बर	कम्पनी का नाम
1.	011906	मैसर्स शाकम्बरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2.	010812	मैसर्स छिन्ना मस्तिके फेरस प्राइवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 30 जून 2011

सं. आरओसी/पैट/560(3)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 दिन के उपरान्त यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी :--

क्र.सं.	नम्बर	कम्पनी का नाम
1.	012769	मैसर्स प्रियदर्शी पुर्नान्द मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	004212	मैसर्स शशि प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखंड

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स प्रसाद मोटर्स फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. आरओसी/पैट/560(5)/ईईएस-2011/3709--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रसाद मोटर्स फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ओ. पी. शर्मा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखंड

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. करं/प.बं./ईईएस-560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	कं. नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	029551	मैसर्स घोष एण्ड कम्पनी (टेक्सटाईल्स) प्राईवेट लिमिटेड
2.	056988	मैसर्स आरहीटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	085679	मैसर्स फिल्ट-ओ-फेब प्राईवेट लिमिटेड
4.	099559	मैसर्स मेटरेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
5.	080070	मैसर्स डायनामिक टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
6.	129945	मैसर्स का रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	130918	मैसर्स नीविशा रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	098080	मैसर्स स्ट्रेटेजिक हॉस्पिटैलिटी फोकस प्राईवेट लिमिटेड
9.	141357	मैसर्स के एस बी वाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	111962	मैसर्स ए प्लस लर्निंग सोल्यूशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
11.	145819	मैसर्स रेनबो-इ-शोपी प्राईवेट लिमिटेड
12.	129108	मैसर्स स्टार विनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
13.	135515	मैसर्स मेपल विनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
14.	135595	मैसर्स संकल्प डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड
15.	129112	मैसर्स स्काईलार्क विनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
16.	135428	मैसर्स यूनिक कोमोसेल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	135418	मैसर्स वुडलैण्ड डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	135429	मैसर्स ब्लैकबर्ड डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	135421	मैसर्स सोलवेन्ट विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड
20.	129161	मैसर्स जीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	056750	मैसर्स डिवाइन आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
22.	060256	मैसर्स एमपी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पं. बंगाल

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 24 जून 2011

सं. कर/शि./560(5)/2011/947--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

Sr. No.	Company Name	CIN
1	ए.पी.बम्बू प्राइवेट लिमिटेड	U20293AR2005PTC007891
2	ए टू जेट इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U31908AS1987PTC002804
3	अबाहानी फीनभेस्ट एन्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1996PTC004891
4	एबीपीएच गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U18101AS1999PTC005652
5	ऐडीक्यूट इन्फोमेटिक मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2005PTC007973
6	एडमानस बूल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U70109MN2000PTC006239
7	आइ भेली कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45309AS2000PTC006310
8	अजनता एलोरा (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U24246AS2001PTC006628
9	अजीर सम्भव पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड	U22121AS1994PTC004104
10	अल्लफा प्राइवेट लिमिटेड	U51909ML1950PTC000943
11	अलपाइन टी कम्पनि लिमिटेड	U15491AS1998PLC005400
12	अम्बीका होटलस एन्ड रीसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1996PTC004931
13	अमपरसेन्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2007PTC008405
14	अनालेक सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120AS1993PTC003962
15	अन्नत पावर टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2002PTC006836
16	अनील दीप डेपलोपरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1997PTC005014
17	अनूपम प्रिन्टस एन्ड एसोसीयट्स प्राइवेट लिमिटेड	U22219AS1993PTC004037
18	एनी टाइम टी कम्पनि लिमिटेड	U51226AS1999PLC005647
19	अपीका पलान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	U01119AS2000PTC006296
20	अपका नेट मारकेटींग (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74999AS2006PTC008038
21	अर्दिम बूल्डरस एन्ड एसोसीयट सर्वसेस प्राइवेट लि	U70101AS2004PTC007503

22	अरमान इन्वेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U92199AS2004PTC007589
23	अरुणा फीनभेस्टस प्राइवेट लिमिटेड	U01119AR1996PTC004801
24	अरुणाचल बूलडरस एन्ड सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AR1997PTC005167
25	अरुणाचल फायनेन्स एन्ड हाउसींग प्राइवेट लिमिटेड	U65922AS1988PTC003044
26	अरुणाचल मीट प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U01221AR1993PTC004003
27	अरुणाचल प्रदेश सीक्रेटी कनसलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AR2006PTC008164
28	अरुणाचल इस्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27107AS1989PTC003277
29	असबाब अक्सोम प्राइवेट लिमिटेड	U27101AS1987PTC002670
30	असीयाना रीयल इस्टेटस प्राइवेट लिमिटेड	U17295AS1998PTC005424
31	असरे मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2006PTC008267
32	असथा कमरसीयल प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2003PTC007126
33	असोम प्रकासानी प्राइवेट लिमिटेड	U22110AS1968PTC001291
34	असोम टोरल प्राकरतीक गैस कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U23201AS2002PTC006754
35	आसाम एकूवा ट्रीट इन्जेनेरींग प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1999PTC005672
36	आसाम बून मील्स एन्ड फरटीलायजर प्राइवेट लिमिटेड	U24123ML1958PTC001127
37	आसाम बूलडरस कोरप्रोशन प्राइवेट लिमिटेड	U45309ML1962PTC001193
38	आसाम कनवस क्राफ्टस इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U17215AS1970PTC001317
39	आसाम केमीकलस इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U72100AS1952PTC001002
40	आसाम कूल्लूसरस प्राइवेट लिमिटेड	U29299AS1976PTC001644
41	आसाम एलोकट्रो प्रीनटींग प्राइवेट लिमिटेड	U22219AS1985PTC002311
42	आसाम फेरो सीमेन्ट प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U26942AS1986PTC002579
43	आसाम फीसरी एन्ड डाइरी कम्पनि लिमिटेड	U45309AS1951PLC000984
44	आसाम होटलस इडन प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS2000PTC006159
45	आसाम माइनसएन्ड मीनरलस प्राइवेट लिमिटेड	U72100AS1973PTC001454
46	आसाम मूगा सील्क प्राइवेट लिमिटेड	U17112AS2002PTC006876
47	आसाम फीसीथ्रोपेथीक एन्ड मेडीकल रीसरच सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85199AS1987PTC002652
48	आसाम पोलीथीन प्राइवेट लिमिटेड	U25209AS1965PTC001260

49	आसाम सू मनीफेकचरगी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U27104AS1979PTC001765
50	आसाम इसपोक प्राइवेट लिमिटेड	U35923AS2000PTC006145
51	आसाम सरजीकल प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U33119AS1973PTC001404
52	आसाम सवासथीक सोलेशनस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2003PTC007092
53	अजोनल क्रेडिट एन्ड इनफेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U67120TR1992PTC003665
54	बी एन्ड ए सीमेन्टस लिमिटेड	U32308AS1985PLC002308
55	बी डी पी इनफ्रासटक्चर प्रोभाइडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45203ML2006PTC008161
56	बजानाइ एसूरेनस सर्वसीग सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U67200ML2003PTC007249
57	बंजरंगलाल अगरवाला एन्ड कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1956PTC001081
58	बराक एजनसीस एन्ड सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1999PTC005754
59	बराक इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U64202AS2004PTC007317
60	बरूवा आग्रो सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U01117AS1983PTC002033
61	बीमस पप्लीकेसीग प्राइवेट लिमिटेड	U22121AS2004PTC007507
62	बीटेक इनजनेरीग इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U45203MN1992PTC003762
63	भानू फेल्लोभरस प्राइवेट लिमिटेड	U24244ML2001PTC006658
64	भूयान मारकेटीग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2006PTC008142
65	बीमलापूर कोलरीस प्राइवेट लिमिटेड	U10101AS1952PTC001014
66	बाइसी मेनेजमेन्ट एन्ड रीसरच मेघालय प्राइवेट लिमिटेड	U74210ML2001PTC006548
67	ब्लेज फायनन्स एन्ड इनवेस्टमेन्ट लिमिटेड	U72200AS1989PLC003354
68	ब्लू हीलस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड	U24242AS1974PTC001539
69	बोफीन लेबोरीस प्राइवेट लिमिटेड	U51397AS2007PTC008376
70	बोरा सीक्रेटीस पेलस्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74910AS2003PTC007202
71	बोदसील्ला ट्रेडिंग एसोसीएटस प्राइवेट लिमिटेड	U51226AS2003PTC007001
72	ब्राम्हापुत्र फायनेन्स एन्ड इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1986PTC002604
73	ब्राम्हापुत्र आइस एन्ड आइस प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U15544AS1963PTC001211
74	ब्रीज एन्ड बीलडीग क्रोप्रोशन प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1955PTC001069
75	कनबेरा होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1990PTC003407

76	केपीटल मोटरस प्राइवेट लिमिटेड	U50101AS1965PTC001251
77	करीयररीच एजुकेशनल कनसेलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2002PTC006838
78	चेलेनजरस मलटी लिंक प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2003PTC007160
79	चरण क्रेयसन एन्ड कनसट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड	U45201ML2005PTC007686
80	चाइनीस इनजेनेरीग कनसट्रक्शन कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1957PTC001119
81	चोएस इमेन्टस एन्ड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U92199AS2004PTC007472
82	चौधरीस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1954PTC001043
83	कोटस इनफ्रोमेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	U72900MZ2000PTC006005
84	कंघग्रेट मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109ML2003PTC007015
85	कोसमीक आगो प्राइवेट लिमिटेड	U01117NL1994PTC004174
86	कोसनी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72900AS2007PTC008354
87	डोफाडील टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2001PTC006707
88	डम्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1986PTC002475
89	डानीयल फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U01132NL1994PTC004250
90	दास एन्ड सनस इनफोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2001PTC006577
91	डेभीड कन्सलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2004PTC007615
92	डेलट्रेडीड इनजेनेरीग एन्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1993PTC003973
93	डनीजेन कनसलटेनसी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2002PTC006909
94	डेसर्ट इसप्रीग ट्रेडरस एन्ड सपलायरस प्राइवेट लिमिटेड	U51909MN1995PTC004421
95	डीटीनेशन नर्थ इस्ट टोरस एन्ड ट्रेडलस प्राइवेट लिमिटेड	U92113AS1998PTC005425
96	दनसारी सो मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U20101AS1945PTC000615
97	घनवर्सा मारकेटींग एन्ड इनभेस्टमेन्ट सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1994PTC004119
98	घोनेस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1997PTC005078
99	डीजीटल इनफोसीस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U74200AS1999PTC005900
100	डीकनियोम कनसट्रक्शन एन्ड फेब्रीकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U45203AR2001PTC006484
101	डीएमडब्लू कनसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45203ML2005PTC007770



102	डोनीपोलो केबलस एन्ड कंडक्टरस प्राइवेट लिमिटेड	U31300AR1993PTC003844
103	डाउन टाउन पोलीपेक प्राइवेट लिमिटेड	U65993AS1988PTC002976
104	दूरमा सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U26942ML2005PTC007843
105	डायनामो कनस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS2001PTC006479
106	डायनसटी कनस्ट्रक्शन एन्ड डेपोपरस प्राइवेट लिमिटेड	U15511AS1998PTC005511
107	इस्ट पोयन्ट टोरस एन्ड ट्रेमलस प्राइवेट लिमिटेड	U63040AR2003PTC007227
108	इस्ट जून इन्डिया सीक्रेटी प्राइवेट लिमिटेड	U74920AS1997PTC005184
109	इस्टा भीसन सेटालायट नेटवर्क . प्राइवेट लिमिटेड	U64204AS1995PTC004510
110	इस्ट्रन फूड प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U20211AS1957PTC001125
111	इसट्रन गेलक्शी सर्वसेस एन्ड कनसलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74210MN1997PTC005216
112	इसट्रन मोटरस प्राइवेट लिमिटेड	U50101AS1945PTC000609
113	इसट्रन इसटार ट्रेडींग कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51909MN2000PTC006374
114	इसट्रन सरवाइवरस एन्ड इनजेनीरींगस प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1984PTC002145
115	एट सीसटरस कन्सलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U74140ML2006PTC008205
116	एलेमल रीसोर्ट एन्ड होटलस प्राइवेट लिमिटेड	U55101TR2001PTC006615
117	इलायट इडीकीउर प्राइवेट लिमिटेड	U80903AS2005PTC007884
118	इनजेनरस कोलाबोराटीप प्राइवेट लिमिटेड	U45309AS2001PTC006535
119	एभरग्रीन आगो फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U01117NL1994PTC004172
120	इडब्लू लीक्स प्राइवेट लिमिटेड	U15132AS2001PTC006664
121	एक्सल इनफोसोलशन इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2000PTC006043
122	फोगलेन्ड होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55101ML1984PTC002226
123	फोरेनटीयर टी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51226ML1991PTC003552
124	फीउचर आइडियास एन्ड मार्केटींग सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300ML2007PTC008249
125	जी सी एन्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72100ML1987PTC002697
126	गगनसोम्बी रियल इस्टेट एन्ड डिजायनेरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1997PTC005150
127	गनपति टायरस रिथेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U25114AS1986PTC002624

128	गनगो मेटलस एन्ड इस्सटील प्राइवेट लिमिटेड	U51228AS1989PTC003276
129	गारडेन फ्रेस आसाम टी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U15491AS1998PTC005331
130	गतीचीत्रा प्राइवेट लिमिटेड	U92111AS1971PTC001343
131	गुहाटी इनटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1981PTC001861
132	जीएफ आसाम टी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U15142AS1999PTC005660
133	गलोबाटी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS1985PTC002277
134	ग्लोबल कनसलटेन्सी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2005PTC007880
135	गोलागाट पोलथीन प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U25209AS1982PTC001980
136	गोलडेन इस्टार मार्केटींग सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2003PTC007144
137	गूडवील कमप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72100ML2005PTC007758
138	ग्रेट इसट्रन टी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1992PTC003723
139	ग्रीनर पाटचरस प्राइवेट लिमिटेड	U15491NL1993PTC003983
140	ग्रूमनेट सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2002PTC006957
141	गूलमोहर कमरसीयल प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1985PTC002278
142	एच.ए.आर. ट्रेडींग एन्ड बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45203AS1984PTC002273
143	हेकटो मार्केटींग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2002PTC006943
144	हेम कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड	U72300ML1995PTC004440
145	हील्स ट्रेडरस प्राइवेट लिमिटेड	U10200ML1983PTC002098
146	हिन्दुस्तान ट्रेडरस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1951PTC000994
147	एचएम तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड	U16009AS2000PTC006009
148	हूगलाग बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45209ML2002PLC006770
149	आई बी रोय मेनेजमेन्ट कनसलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U74140ML1990PTC003477
150	इम्पेरियल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2003PTC007045
151	इन ग्रोव प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U01409MN1994PTC004072
152	इनडू फोरस सीक्रेटी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72100ML1999PTC005825
153	इन्डस्ट्रीस एन्ड कन्सकट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1983PTC002022
154	इनफोटेल् सीसटेमस प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2004PTC007330

155	जमूना भेली फायनेन्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U65923AS1996PTC004682
156	जन्ना सिलपा प्राइवेट लिमिटेड	U31401AS1965PTC001249
157	जय इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U15311AS1987PTC002778
158	जइनीतीलाल एन्ड तारा एजनसी मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1988PTC003163
159	जीवन आनन्द नेटवर्क मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U74999AS2006PTC008068
160	जीम्मी फायनेन्स एन्ड लीसिंग कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U65921ML1995PTC004400
161	के.एम.बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1999PTC005758
162	कमाख्या जेनरसल फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट कम्पनि लिमिटेड	U65929AS1982PLC001978
163	कामाख्या रबर इनडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1988PTC002870
164	कामरूप फार्मासीटूकलस प्राइवेट लिमिटेड	U85194AS2004PTC007576
165	कन्यनजंगा प्रेसA प्राइवेट लिमिटेड	U27101AS1998PTC005422
166	कापीली हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1996PTC004896
167	करण फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U01132NL1994PTC004249
168	कस्तूरी केन एन्ड बम्बू प्राइवेट लिमिटेड	U20296AS2005PTC007936
169	केसरिया होलडींग प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1985PTC002280
170	कीरीता फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1991PLC003569
171	कोहिमा वेभीग एन्ड हेनड्लम कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U17309NL1998PTC005617
172	कूखराजार टलक्स प्राइवेट लिमिटेड	U92199AS1965PTC001245
173	कूमेरु फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1994PTC004152
174	कैनथीउलग मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109ML2004PTC007353
175	लक्सा आशा एलोकट्रनीकस प्राइवेट लिमिटेड	U51505AS2001PTC006610
176	एलसीसी फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65910ML2001PTC006540
177	लरनरस टेकनोकम प्राइवेट लिमिटेड	U72200TR2003PTC007054
178	लाइफ जेनरल फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1988PTC003093
179	लाइफ इनफोरमेटिक कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U67200AS2002PTC006812
180	लीगनेट सर्वसेस एन्ड मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2006PTC008274

181	लूसेन्ट इन्डिया फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1994PTC004103
182	लूहीत लेबोटेरीस प्राइवेट लिमिटेड	U24232AS1987PTC002829
183	एम.डी.ए मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2005PTC007944
184	एम .के एलायन्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2000PTC006318
185	एम.एन रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड	U60231AS1986PTC002583
186	मां भवनी टी प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1999PTC005636
187	मेसी मीनरलस वाटरस प्राइवेट लिमिटेड	U15543MZ2003PTC007080
188	मंगलिया फायनेन्स एन्ड चीट फोन्ड प्राइवेट लिमिटेड	U65929ML1974PTC001564
189	महावीर चीलारी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U45203AS1987PTC002777
190	मेक प्रोडक्स कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U01409NL1994PTC004068
191	मणिपूर चीटस सेवींग एन्ड इनभेस्टमेन्ट कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U65992MN1977PTC001717
192	मारुउप मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2006PTC008089
193	माउसनरुट भीनर प्राइवेट लिमिटेड	U20101ML2000PTC006198
194	मेधालाया केलसीनियट एन्ड केमिकलस प्राइवेट लिमिटेड	U51909ML2005PTC007905
195	मेधालाया फेतोकेमिकलस लिमिटेड	U01117ML1974PLC001595
196	मिरोर लिकरस प्राइवेट लिमिटेड	U51228AS2004PTC007462
197	मीताली क्रेडिट एन्ड इनभेस्टमेन्ट कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1974PTC001540
198	मंगलदोय सिकूरेटी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920AS2001PTC006604
199	मून प्रोटक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74910AS2005PTC007668
200	माउन्ट भीसन नेटवर्क मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U63040TR2006PTC008154
201	माउन्टन आगो कनसलटेन्स प्राइवेट लिमिटेड	U01409AS2003PTC007226
202	माउन्टेन सिकूरेटी लिमिटेड	U74920MZ2002PLC006810
203	मीरतूनजय ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U14220AS1997PTC005148
204	मलटीप्लेक्स कनसलटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1997PTC005278
205	मूरलीदर अगरवाला एन्ड कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1956PTC001079

206	एन सी हिल्स राइसींग पलान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	U02001AS1991PTC003592
207	एन इ इमपेक्स एन्ड कनसलटेन् प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2000PTC006071
208	एन इ पलानरस एन्ड ग्रावरस प्राइवेट लिमिटेड	U93090AS2001PTC006602
209	एन इ प्रोजेक्टस लिमिटेड	U16009AS1999PLC005873
210	एन एन आगो मेक प्राइवेट लिमिटेड	U01119AS1993PTC003901
211	एन टी इसपात कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U27104NL2001PTC006482
212	नामसीम डेपोलपरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1998PTC005370
213	नाभावरुण फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	U92111AS1976PTC001657
214	एनइ- एक्सप्रेकस वे केरियरस प्राइवेट लिमिटेड	U60231AS2007PTC008287
215	नेटबूल्ड सर्वसेसS प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2007PTC008393
216	नीउ आसाम जेनरल फायनेन्स एन्ड हाउसींग प्राइवेट लिमिटेड	U65922AS1986PTC002597
217	नीउ ग्रीन फाउन्डेशन प्राइवेट लिमिटेड	U01409AS2001PTC006717
218	नीउ भीसन सीक्रेटी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920ML1999PTC005843
219	नीजुन टेकसायलस प्राइवेट लिमिटेड	U17111AS1995PTC004339
220	नीयट इनफोटाक प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS2003PTC007206
221	नीतिन अलुमिनियम इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U27203AS1989PTC003181
222	नर्थ इस्ट ओरगेनीक फरटीलायजर ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	U52397AS2002PTC006965
223	नर्थ इस्ट पेसीनजरस सेपटी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1994PTC004160
224	नर्थ इस्ट प्रीनटरस प्राइवेट लिमिटेड	U22219ML2001PTC006613
225	नर्थ इस्ट इसपाइस ट्रेडरस इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U01135ML1998PTC005298
226	नर्थ इस्ट्रन आगो फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	U51909MN1994PTC004070
227	नर्थ इसट्रन एल्योयस प्राइवेट लिमिटेड	U27104AS1986PTC002619
228	नर्थ इसट्रन डेपलोपमेन्ट ट्रेड एन्ड कमस प्राइवेट लिमिटेड	U51909MN2001PTC006691
229	नर्थ इसट्रन आउटडोरस मेडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74300AS2005PTC007840
230	नर्थ इसट्रन टी कनसलटेनसी प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1983PTC002046
231	नूलाइट फायनेन्स एन्ड सेवींग कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U65929ML1973PTC001439

232	ओल्ड फ्रेंड्स एन्ड कम्पनि तिनसुकिया प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1965PTC001239
233	पाली अन्नायान सोउनगा कछार प्राइवेट लिमिटेड	U01300AS1967PTC001280
234	पानथोइबी कमरस एन्ड ट्रेड लिमिटेड	U51909MN1999PLC005964
235	पारागन एपारटमेन्टस एन्ड बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2002PTC006752
236	पवनस सीग्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U16003AS2000PTC006237
237	पीस हाउसींग एन्ड फायनेन्स कम्पनि लिमिटेड	U65922AS1997PLC005047
238	पानीघर गोगइ पीजी कनसल्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1997PTC005269
239	फेरो स्टील प्राइवेट लिमिटेड	U27101AS2002PTC006789
240	पोलीफेब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U25209AS1973PTC001431
241	प्लोटक्स मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109ML2003PTC007120
242	पोलइसटार मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51109ML2003PTC007288
243	प्रागज्योतिस रियल इस्टेट डेपोलोपरस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1994PTC004109
244	प्रीमर कनसल्टींग इनजेनीयरस एन्ड आरटीटेकस प्राइवेट लिमिटेड	U45203MN1993PTC003834
245	प्रीन्स होटलस आसाम प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1975PTC001630
246	प्रोजेक्ट कनसल्टेन्टस एन्ड इनजेनीयरस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1975PTC001626
247	पूबहरसेवींग सेवीह एन्ड चीटस प्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1974PTC001588
248	रासिनेट कारगो प्राइवेट लिमिटेड	U63011AS2001PTC006488
249	राज (आसाम) बूलडरस कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS2001PTC006561
250	राजेश चीट फोन्ड प्राइवेट लिमिटेड	U72100AS1974PTC001570
251	रामधेनु प्रेस प्राइवेट लिमिटेड	U22211AS1949PTC000892
252	रिजनल फायनेन्स एन्ड इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U65922MN1988PTC003064
253	रोनाबी कनसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2003PTC007140
254	रुहानजास कनसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2004PTC007479
255	रूमीशन अफसेटप्राइवेट लिमिटेड	U22211AS1986PTC002634
256	रूपाली फायनेन्स एन्ड इनडस्ट्रील इनवेस्टमेन्टप्राइवेट लिमिटेड	U65929AS1985PTC002435
257	रूपज्योति चलाचित्रराम प्राइवेट लिमिटेड	U92111AS1974PTC001566

258	एस एम इन्डिया लिमिटेड	U26942ML1998PLC005541
259	साही तिया प्रकाश भवन प्राइवेट लिमिटेड	U72100AS1948PTC000844
260	सनामिसा एन्ड कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1987PTC002728
261	सरायगाट कनसुमरस गूडस प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2000PTC006277
262	सरबोदय रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS2004PTC007598
263	साथी इनटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U60210AS1977PTC001690
264	सवायम मारकेटीग प्राइवेट लिमिटेड	U51909ML2004PTC007486
265	सी इस्काइ होलडीहंस प्राइवेट लिमिटेड	U15314AS1985PTC002279
266	सेनापति एगरीकलचर प्रोडक्स कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U01409MN1994PTC004071
267	सहाली नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2006PTC008127
268	श्री इन्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51311AS2002PTC006763
269	सीलभरइस्टोन फेरो एल्योयस प्राइवेट लिमिटेड	U27101ML2001PTC006508
270	इस्काइलीमिट सीक्रेटी एन्ड पेलेसमेन्टप्राइवेट लिमिटेड	U74910ML2007PTC008257
271	सिलभरस अगरी-बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U51219AS2005PTC007701
272	एसएमडीए इनजेनेरीगस एन्ड प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1996PTC004906
273	सोनीतपुर सीक्रेटी सर्वसप्राइवेट लिमिटेड	U74910AS2004PTC007380
274	इसटानडरस ड्रक्स एन्ड मेडिकल इनटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U24232AS1964PTC001220
275	इसडानडरस फायन्ससीयल सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS1992PTC003817
276	इस्टीलवेल सीक्रेटी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74910AS2004PTC007475
277	इस्ट्रान (इन्डिया) प्लनटेशन एन्ड मारकेटीग प्राइवेट लिमिटेड	U51109NL2000PTC006259
278	सूक्ला प्लासटर मेधालाया प्राइवेट लिमिटेड	U26945ML2001PTC006643
279	सरभाइभर सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140AS2002PTC006756
280	सोफ्ट टी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U63021AS1987PTC002772
281	टी सी चन्द एन्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड	U45301AS1952PTC001011
282	टायटो टीमबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	U22219NL1984PTC002184
283	टनभी रोड केरियरस प्राइवेट लिमिटेड	U60231ML2001PTC006641

284	तेजपुर एलक्ट्रीस एन्ड इनजेनीरीग कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U40101AS1936PTC000474
285	द्रागोपन स्टीलस प्राइवेट लिमिटेड	U27109NL1993PTC003846
286	टीआरजी कम्प्यूटर कनसल्टन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	U72200TR1996PTC004693
287	टीसूराग भेली टी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U01132NL2001PTC006554
288	उदायामन सीक्रेटी सर्वसेस एन्ड कनसलटेनसी प्राइवेट लिमिटेड	U74910AS2005PTC007976
289	उमदामाली मिनेरलस प्राइवेट लिमिटेड	U14297ML2004PTC007405
290	यूनीकन स्टकचरस एन्ड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1993PTC003990
291	यूनाइटेड एफोर्ट कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2001PTC006696
292	अनोकोट्ट प्लानटेशनस एन्ड डेवलोपमेन्ट कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U01132TR1984PTC002200
293	भासहीसत इनसट्रोमेन्शनस प्राइवेट लिमिटेड	U31909AS1987PTC002753
294	भेनस फोर्स सीक्रेटी सर्वसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920ML1999PTC005884
295	भीदासहा इनस्ट्रूट् मेनेजमेन्ट अफ स्टूडियोप्राइवेट लिमिटेड	U80221AS1998PTC005624
296	भीदला पायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72100AS1985PTC002281
297	बीसतार सिमेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U26942ML1998PTC005520
298	वीनस मारकेटीग प्राइवेट लिमिटेड	U51109AS2005PTC007895
299	योगं प्रीनटरस एन्ड पब्लिशर एन्ड आसाम प्राइवेट लिमिटेड	U22121AS1994PTC004288
300	जीनत बूलडरस एन्ड प्रोमटरस प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS1998PTC005435
301	डा. बी.के.जलन एन्ड अरस प्राइवेट लिमिटेड	U85110AS1989PTC003301
302	ए के एसोसीयटस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1998PTC005362
303	अभीलाशा मारचेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2003PTC007036
304	एसी सन् एसोसीयटस प्राइवेट लिमिटेड	U70109AS1993PTC004024
305	आछुयूत टेक्सटायलस प्राइवेट लिमिटेड	U18101AS1992PTC003731
306	अदितिया सबटवायरस प्राइवेट लिमिटेड	U72200AS1996PTC004733
307	अगराला मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909TR2004PTC007409
308	अलकोन मेडीसन प्राइवेट लिमिटेड	U24232AS2005PTC007851
309	अमन एन्ड कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS1981PTC001873



310	अनकित इन्हें प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1996PTC004814
311	एकुवा नेटवर्कस प्राइवेट लिमिटेड	U24299AS2002PTC006744
312	अरनब -अनामिका आकाश ट्रेडिंग कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2004PTC007457
313	अरुणाचल बूलडरस एन्ड हायड्रो पार कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U45309AR2000PTC006288
314	असोम प्रगति इनफ्रेस्टक्चर लिमिटेड	U70101AS2004PLC007386
315	आसाम बेक्स एन्ड केक्स एोसियटस प्राइवेट लिमिटेड	U15412AS2003PTC007109
316	आसाम कमरसियस एन्ड लिसिंग (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U65921AS1985PLC002415
317	आसाम होलरस प्राइवेट लिमिटेड	U60210AS1989PTC002492
318	आसाम मणिपुर केरियरस प्राइवेट लिमिटेड	U60231AS1985PTC002456
319	आसाम मेथानोल प्राइवेट लिमिटेड	U23201AS1994PLC004117
320	आसाम सीलीमेनेट प्राइवेट लिमिटेड	U14109AS1951PLC000990
321	आसाम स्मार्ट कार्ड प्राइवेट लिमिटेड	U74995AS2005PTC007911
322	आसाम भेली ट्रमेलस प्राइवेट लिमिटेड	U63040AS1988PTC003043
323	आसाम जीनकोट प्राइवेट लिमिटेड	U55101AS1987PLC002820
324	अभीन्नदन एपारटमन्टस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1997PTC005273
325	एभीएम तंबाकू कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U16003AS1999PTC005857
326	बी आर इन्डसट्रीस लिमिटेड	U15204AS1993PLC003930
327	बी.आर फीनकेप प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1995PTC004540
328	बाबा सेक्रेटीस प्राइवेट लिमिटेड	U67120AS1995PLC004383
329	बाक्स मारकेटींग प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS2002PTC006813
330	बनजोप कानबम प्राइवेट लिमिटेड	U20293ML1998PTC005309
331	बनसीदाम टी कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U01132AS2000PTC006120
332	बारियल फायनेन्स एन्ड इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड बीडीएस	U67120AS1994PTC004124
333	बीडीएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1997PTC005021

334	भारतिा इसक्राप इनडसट्रीयस प्राइवेट लिमिटेड	U27107AS1986PTC002605
335	बाभवना इनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1995PTC004484
336	बायटंग सगंताम बूलडरस प्राइवेट लिमिटेड	U45201NL2005PTC007626
337	बैटंग सगंताम मेडिकल डायगोनिस्ट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110NL2005PTC007625
338	बोहागी फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट लिमिटेड	U65929AS1995PLC004517
339	बोरा प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1988PTC003074
340	ब्रह्मपुत्र एगरीकलचरस मीसीनेरस प्राइवेट लिमिटेड	U74210AS1994PTC004327
341	ब्रह्मपुत्र कनसूमर प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1990PTC003433
342	ब्राईट स्टोरस इनटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51909AS1994PTC003798
343	ब्राइटेक्स फायनेन्स एन्ड लिसींग लिमिटेड	U01119AS1993PLC003939
344	बूरीकिया उधोग प्राइवेट लिमिटेड	U27104AS1986PTC002618
345	सेन्ट3ल इन्डि फायनेन्स एन्ड इनभेस्टमेन्ट E	U65929AS1988PLC003011
346	सेनचूरी प्रोपटीस प्राइवेट लिमिटेड	U70101AS1996PTC004700
347	छेत्रापति पान डे कनसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45201AS1990PTC003456
348	चीपसइंसटोन कनस्ट्रक्शन कम्पनि प्राइवेट लिमिटेड	U45309AS1991PTC003540

जी. सी. यादव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 30 जून 2011

सं. कर/शि./560/938-43--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कंपनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	004289	मैसर्स भासकारीया रीयल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2.	008255	मैसर्स ट्रीडेन्ट सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3.	002643	मैसर्स रॉयल रीजन इंडिया एण्ड प्राइवेट लिमिटेड
4.	005012	मैसर्स मणिपुर इस्टेट पावर्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
5.	007637	मैसर्स पूर्वा कोल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	001976	मैसर्स आसाम इस्पात लिमिटेड

डी. एन. चौधरी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

चेन्नै, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. 65 से 66896 तक/560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	65	अंदमान & निकोबार टेक्नोलाजी लाब् प्रैवेट लिमिटेड
2	1650	मयूरं मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	2149	पाप्पुलेर आठोमोबैल्स प्रैवेट लिमिटेड
4	2320	राजपलायम ट्रेडिंग & फिनांस सीओ प्राइवेट लिमिटेड
5	2381	साउथ इंडिया एक्सपोर्ट सीओ प्राइवेट लिमिटेड
6	6977	सिएको फिनिशेड लीठेर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	7364	अपेक्स रूबेर प्राइवेट लिमिटेड
8	8093	वी फिल प्रैवेट लिमिटेड
9	8436	प्रेसिसिओ फ्लुइड साल्स लिमिटेड
10	10447	ट्रांस प्रोजेक्ट्स एअस्तेर्ण प्राइवेट लिमिटेड
11	10742	नीटु आठोस प्रैवेट लिमिटेड
12	11093	कुम्बमकोणं बोट्लिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
13	11476	विजय पेस्टिसिदेस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
14	11535	दफ्फोदिल्स इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	12524	अर्लाव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
16	12603	रंका फार्मासुतिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
17	12896	परमौत गैसेट्स इन्दुस्त्रिएस प्राइवेट लिमिटेड
18	12910	रास्प सर्विसेस एंड फिनांस ल्ट्द
19	12935	रंगा,स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड
20	14843	र स म इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
21	15406	डाटा कुएस्त इन्फोतेच एंड एन्तेप्रिसेस लिमिटेड
22	15428	कुरियन ई.कलदिल & असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
23	15492	उ-रेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
24	15714	मेर्कुरी क्लोरातेस प्राइवेट लिमिटेड
25	15772	ऑफिस केयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
26	15881	कल्याणी ऑटो साल्स एंड सेरविसे (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड
27	16945	सिएको कार्गो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
28	17699	रिलिसर इन्दुस्त्रिअल ईन्फोर्मतिओन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
29	18140	श्री कृष्ण दिएसेल एंगिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	18218	नमः लीठेर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	18223	श्रीराम चिट्स चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड
32	18845	पोर्टफोलियो कम्प्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
33	18966	प्रबु फिनांस & लीसिंग लिमिटेड
34	19188	मिदेअस्त इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
35	19614	लक्ष्मी-सौन्दर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	20934	सुप्रिम् वेल्डराइस प्राइवेट लिमिटेड
37	21168	श्रीवत्स प्रोपर्टीएस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
38	21320	तिरुनगर बेनिफिट फण्ड (मद्रास) लिमिटेड
39	21402	बल्पद कांसुल्टान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
40	21799	नगराथर फिनांस एंड लीसिंग प्राइवेट लिमिटेड
41	21866	विसका कांसुल्टान्च्य सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
42	22395	टी.न.क.व्.होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
43	22419	सिएको कार्गो सर्विसेस (नोर्थ इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
44	22698	हास्वॉन एकसीम्प प्राइवेट लिमिटेड
45	22811	सन्तुतुरी रुइत कंपनी लिमिटेड
46	23081	नैना ग्लुएस & चेमिकाल्स प्राइवेट लिमिटेड
47	23250	इल्लैयर्पतिअर चित प्राइवेट लिमिटेड
48	23295	श्री कैलाय विनायगर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
49	24063	अंगरटेक्स फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
50	24072	उप्पेर इंडिया ट्रेडिंग कंपनी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
51	24180	ब्रिघ्त किन्तवेअर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
52	24319	स्तोने हॉउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
53	24499	फार यास्त प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड
54	24797	अरवि ओवेर्सास प्राइवेट लिमिटेड
55	24879	प्रेमिएर एंगिनीर्स एंड बुइल्देर्स (इंडिया) ल्ट्द
56	25096	ह.क.लीठेर ईन्डुस्त्रिएस प्राइवेट लिमिटेड
57	25536	मारण बुइल्देर्स प्राइवेट लिमिटेड
58	26101	हेर्मितागे रेसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
59	26166	अम्पुचिया लन्ततिओन्स (थामिलानादु) प्राइवेट लिमिटेड
60	26215	सर टेक्नोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
61	26540	अद्वंसद ईन्फोर्मतिओन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
62	26947	अम्मान आरुल चित फुद प्राइवेट लिमिटेड
63	27181	प्रबु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
64	27485	गणेश ऑफिस औतोमोतिऑ प्राइवेट लिमिटेड
65	27833	मागम इन्वैस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	28682	पीती स्टील तूबेस लिमिटेड
67	28733	वाम अकुमरिने प्राइवेट लिमिटेड
68	28766	आनंद सेक्युरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
69	29074	सिसिसि बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
70	29314	एमसी फब्रितेच प्राइवेट लिमिटेड
71	29338	काली ओम्मुनिकतिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
72	29343	न्यू इंडिया फ्रेइघ्त कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
73	29414	श्री उमलाक्ष्मी स्पिन्नेर्स प्राइवेट लिमिटेड
74	29504	सकती मरीने एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
75	29532	मीडिया ईन्नोवतिओन्स & सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
76	29682	मद्रास ओम्मुनिकतिओन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
77	29789	किंग ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
78	29941	सरवनन ऑटो वोक्स प्राइवेट लिमिटेड
79	30039	अन्तरिक्ष श्रेकरितीएस प्राइवेट लिमिटेड
80	30802	ब्लू अकुआ हार्वेस्ट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
81	30949	फॉरचून वॉली अग्रो फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
82	30963	द्वै-सक्ती एनर्जी प्रैवेट लिमिटेड
83	31451	विनीत फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
84	31463	रोकडा फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
85	31465	हरी रामाजयम बनेफिट फुंड लिमिटेड
86	31501	ट्रिनिटी ग्लोबल फिनांस लिमिटेड
87	31592	केजे वैंयर्स प्रैवेट लिमिटेड
88	31962	कृष फिनान्सिअल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
89	32039	पेराक्सी इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
90	32040	पेंटा सेक्युरिटीस प्रैवेट लिमिटेड
91	32086	गन्स कांसुल्टान्च्य सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
92	32170	के.आर. शेयर्स & स्टॉक ब्रोकेर्स प्रैवेट लिमिटेड
93	32463	फ़िवे फलोवर फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
94	32601	लॉरेन्स बिल्डर्स हॉर्डवेर प्रैवेट लिमिटेड
95	32738	अहाना कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
96	32775	तैपन फिनान्सिअल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
97	33256	कथीर फिनांस लिमिटेड
98	33690	तानिगस्तील रोल्लिंग मिल्स प ल्ट्द
99	33856	कम्पोजीटीस ट्रेडिंग कम्पनी इण्डिया पि लिमिटेड
100	33980	पाल्मेर टेकसाफ्ट प्रैवेट लिमिटेड
101	34019	रियल वलुए हौसिंग मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
102	34135	अप्ल लोडिस्तिचस प्राइवेट लिमिटेड
103	34504	है-टेक वेयदर मेकर्स प्रैवेट लिमिटेड
104	34681	सुन नागेर्कोइल फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
105	35249	गेमिनी उब्लिकतिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
106	35431	श्री मरुतिस ओन्फेक्तिओनेर्य प्राइवेट लिमिटेड
107	35470	नित्य चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
108	35488	बुवनेशवरी प्रोपर्टी डेवलपेर्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
109	35641	हॉरचेड मैकोसिस्टेम्स लिमिटेड
110	35655	मेरीगोल्ड मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
111	35677	जय गोविन्द पोली टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
112	35792	सेन्ट.तामस चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
113	35852	स्ट्रीम्स इन्फोमीटिक्स प्रैवेट लिमिटेड
114	35936	लारीच फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
115	36211	गौरमेट् फूड्स प्रैवेट लिमिटेड
116	36366	न्यू तेच फोर्गिंग प्राइवेट लिमिटेड
117	37062	जोनस कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
118	37068	धन्निधि अदिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड
119	37073	आरोन इलेक्ट्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड
120	37117	श्री बालकृष्ण चितफंस प्राइवेट लिमिटेड
121	37174	ग्रीन & स्मार्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
122	37181	सथ्यनारयाना एन्तेप्रिसेस प्राइवेट लिमिटेड
123	37304	मोनालिसा नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
124	37526	श्री पडुका फैनानशियल सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
125	37596	याने मुगन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
126	38094	अवतार ईन्फोर्मतिओन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
127	38172	च्यम मैन्तेनांस कोसुल्तान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
128	38287	फुसर ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
129	38429	सिग्नेट् सिस्टेम्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड
130	38432	एमसिएएच इन्ट्रूमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
131	38680	विस्वमेलु बुइल्देर्स प्राइवेट लिमिटेड
132	38893	ग.क.टंक & कुइप्मेन्त प्राइवेट लिमिटेड
133	38947	एस्से टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
134	38953	सकीलिक ओम्मुनिकतिओन्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
135	38971	सिवा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
136	39114	मांसेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
137	39204	पिचकी & वेअर अशिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
138	39230	श्री नागुर औन्दतिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
139	39287	विन्दोम पुब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
140	39946	आर्रो फोर्वादर्स प्राइवेट लिमिटेड
141	40054	सिल्वर विंग्स Aviation & ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
142	40100	इण्डोफिप पैपिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
143	40184	अक्षय पथरा प्राइवेट लिमिटेड
144	40562	महासक्थी शरेस प्राइवेट लिमिटेड
145	40567	स्वाती सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
146	40610	सुसीमा टेक्नोलॉजिएस प्राइवेट लिमिटेड
147	40738	मयूर्गीन अग्रोतेच प्राइवेट लिमिटेड
148	40755	तेचमो मेटल प्रोसस्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
149	41106	देबुघ नेटवर्क सोलुतिऑस प्राइवेट लिमिटेड
150	41333	मसर तेच इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
151	41391	उदरा मेनेजमेन्ट सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
152	41865	पेरी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
153	41895	एरोडे पॉवर कोर्पोरतिऑ लिमिटेड
154	42079	इंटरसिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
155	42155	अज्हुगु फार्म प्राइवेट लिमिटेड
156	42401	हारमोनिक पॉवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
157	42625	कामक सॉफ्टवेर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
158	42890	अक्वा मार्केटिंग लिमिटेड
159	43062	दतामक्स इंफोवे प्राइवेट लिमिटेड
160	43235	मगम इन्फोर्मतिक्स प्राइवेट लिमिटेड
161	43240	न.र.क.एक्सिम त्रदेस प्राइवेट लिमिटेड
162	43412	कर्म इन्फोर्मतिओन टेक्नोलॉजिएस प्राइवेट लिमिटेड



क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
163	43592	अश्वीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
164	43709	मोडो'स क्षुसिओन्स & ऑकेस्सोरिएस प्राइवेट लिमिटेड
165	43884	ब्यूस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
166	43897	प्रोअक्टीव डिसिशनस लिमिटेड
167	44114	सन्माक्स केमिकल्स (राणीपेट) प्राइवेट लिमिटेड
168	44153	श्री परिम्क टेक्नोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
169	44205	स्तिन्च 'न' फिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
170	44379	सेदीयेस सुपर शोप्पि प्राइवेट लिमिटेड
171	44397	क्यूबेर्रण सॉफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
172	44546	संटेल् ओम्मुनिकतिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
173	44603	विनाल्ल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
174	44752	वत्स हम्फेरी सॉफ्टवेर क्वालिटी इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
175	45759	चीत इन्फोतेच प्राइवेट लिमिटेड
176	45948	वैस्स टेक्नोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
177	46027	गुं गुं मरीने प्रोदक्त्स कंपनी प्राइवेट Limited
178	46070	साम्राट् टवर कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
179	46153	कुमारी युनैटेड नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
180	46439	चैनवाल्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
181	46492	एके कोल्ड स्टोरागे प्राइवेट लिमिटेड
182	46619	एक्सीयन्ट कणसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
183	46688	इन्डेस्पा मेटल कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
184	46892	बी.इ.टी. फ्रेड्रिक् एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
185	46915	हाश १ सॉफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
186	47226	परिदे इन् प्राइवेट लिमिटेड
187	47293	अर्तेरी डिजाईन प्राइवेट लिमिटेड
188	47803	पल्लव शेल्तेर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
189	48007	श्री लक्ष्मी प्रसन्ना मुवीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
190	48234	मनावर्ग अग्रोतेच मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
191	48642	चेन्नई उशध ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
192	48759	फिरन्डली कॉल ठाक्सी प्रैवेट लिमिटेड
193	48865	प्रचारक टेक्नोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
194	48919	अ.क. रेमेडेस प्राइवेट लिमिटेड
195	48981	लोधा इन्फोतेच प्राइवेट लिमिटेड
196	49115	दुसेजा देवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
197	49227	परिमे कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
198	49243	मैन्ड असोसियेन्ट साफ्टवेयर प्रैवेट लिमिटेड
199	49366	र.क.व्.चित फुन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
200	49588	सर्चो ओल्लेक्किओन्स प्राइवेट लिमिटेड
201	49714	थामरै एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
202	49831	प.र.बी. इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
203	50276	हम्ब्रोस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
204	50369	श्री बर्वे त्रदेस प्राइवेट लिमिटेड
205	50449	शासन इण्डिया रिचर्च फौंडेशन & नौलेज मैनेजमेन्ट सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड
206	50457	सर्फ़द्रान्स प्रैवेट लिमिटेड
207	50706	अरविन्द हेर्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
208	50707	क्स्तेंद अपत सोलुतिऑस प्राइवेट लिमिटेड
209	50734	सुन & शिने इम्पेक्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
210	51182	प्रण इन्फोतेच प्राइवेट लिमिटेड
211	51247	वी सकी एंगिनीर्स & कांसुल्टान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
212	51298	बिओमिनेस रेसेअर्च सोलुतिऑस प्राइवेट लिमिटेड
213	51332	म.ग.म. मरी ब्रोव्न फॅमिली रेस्तोरंट्स (India) प्राइवेट लिमिटेड
214	51772	गोयंका एजुकेशन सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
215	51984	पीटीके फब प्राइवेट लिमिटेड
216	52071	विजेई इन्सुरांस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
217	52331	एसएस कोस्मिक अकुआ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
218	52377	जोवे त्रदेक्स प्राइवेट लिमिटेड
219	52396	फौर-ग टेक्नोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
220	52452	इन्तेग्राते डिजाईन टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
221	52606	त्वरिता सोफ्तेच प्राइवेट लिमिटेड
222	52640	सृष्टि सिस्टम्स & सोलुतिऑस प्राइवेट लिमिटेड
223	52645	ओरो पलता फूड प्राइवेट लिमिटेड
224	52650	संपूर्ण पॉवर कंपनी लिमिटेड
225	53017	रोयल इन्फोतेच प्राइवेट लिमिटेड
226	53047	केविन डेकार्स प्रैवेट लिमिटेड
227	53275	सन इतेच टेलिकॉम & नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
228	53297	धीप्क्कायुश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
229	53466	रमेशबाबु प्रोडेक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
230	53530	मक्सर्मन मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
231	53956	अद्वंसद ओन्सुक्तिओन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
232	53972	लिकी एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
233	54112	आम्बिएन्ति तेक्स्तिलेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
234	54370	फुसिऑ ट्रांस आगेन्किएस प्राइवेट लिमिटेड
235	54440	श्री लक्ष्मी डेवलपेर्स प्रैवेट लिमिटेड
236	54536	अनेक अग्रो प्रैवेट लिमिटेड
237	54591	रना श्रेकुरितिएस प्राइवेट लिमिटेड
238	54646	वस्ल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
239	54680	जयवेल तेक्स्तिलेस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
240	54712	चुविकंग इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड
241	54751	अन्ने पवक प्रोदुक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
242	54765	चेल्लामई एल्लुलोइड्स प्राइवेट लिमिटेड
243	54805	मनीष कुमार रियल एस्टाते प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
244	54860	चाली सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
245	54884	कजक दिअमोंद ईन्नोवतिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
246	55051	पी.के.अय्यर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
247	55052	श्रीनिधी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
248	55078	सेफद्राक टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
249	55141	वेब्सैन्टीयल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
250	55322	सन्त्रोमेरिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
251	55515	ए एम शूस एण्ड सोल्स प्राइवेट लिमिटेड
252	55623	वीयेसरे इन्फ्रास्ट्रक्चरस & होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
253	55696	प्र्यूथी बिओतेच फार्मासूतिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
254	55697	ब्रिपाक ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
255	55713	ऐर्लिने कार्गो रिसोर्सस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
256	55754	अन्ने फाब्रिक प्राइवेट लिमिटेड
257	55781	कैपरी बुट्रेताक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
258	55920	प्रेसिसिऑ प्रेस प्रोदुक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
259	55952	सीरम एफ़्रिगेरतिओन प्राइवेट लिमिटेड
260	55956	स्ट्रै लाइन फ़ेड्रत सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
261	56138	ख़2 प्रोपर्टी मनागेर्स प्राइवेट लिमिटेड
262	56371	उनी लोगिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
263	56378	कैपरी हल्च्यो रसेअर्च सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
264	56596	कोरल डिअग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
265	56782	महाशाक्ती कमोडिटी एन्तेप्रिसेस प्राइवेट लिमिटेड
266	56824	यसवंत ईन्सुमेन्ततिओन प्राइवेट लिमिटेड
267	56840	नेहा प्रोसस्सिंग सेरविसेस प्राइवेट लिमिटेड
268	56865	पनती मेदिवेस्ट ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड
269	56898	एस.वी. इन्प्रास्टेक्चेर्स प्राइवेट लिमिटेड
270	56963	एएफएफ अकादमिक सपपोर्ट् सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
271	56995	ब्लुएवावे इन्फोतेच प्राइवेट लिमिटेड
272	57010	हियुगएने एडिबले प्रोदुक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
273	57096	दताबसेस तेचानोलोग्य प्राइवेट लिमिटेड
274	57393	सैकोम इन्फोस्यस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
275	57400	पि.आर.सी. सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड
276	57428	अष्टलक्ष्मी अग्रिचल्लुरल फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
277	57444	महालक्ष्मी हार्टिकल्लुरल प्रैवेट लिमिटेड
278	57445	थिर्द एए मैनेजमेंट कांसुल्टान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
279	57667	इ-स्पदे ग्रीन्फ़ैल्ड वेंतुरेस प्राइवेट लिमिटेड
280	57716	युनैटेड अवीएशन लूक्स प्रैवेट लिमिटेड
281	57734	रेमो प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
282	57832	कोल्स इंडिया अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
283	57997	कग बुइल्देर्स & देवेलोपर्स लिमिटेड
284	58116	रकस इन्फो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
285	58153	मैकोफिट टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
286	58269	मदुरै सिस्टम्स एंड सॉफ्ट्वारेस प्राइवेट लिमिटेड
287	58576	क-पॉवर सॉफ्टवेर प्राइवेट लिमिटेड
288	58692	श्री मूकांबिका अग्रीकल्लुरल फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड
289	58693	ऐश्वर्या लक्ष्मी होर्तिचल्लुरे फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
290	58802	मर्सु टेक्नोलोगिएस ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड
291	59006	मक लन्ततिओन्स लिमिटेड
292	59070	विन्सेंट सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
293	59087	एक्ट औतोमोबिलेस इंडिया लिमिटेड
294	59227	मोदेर्ण शिपिंग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
295	59244	एक्सप्रेस मेईल एण्ड कार्गो (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
296	59369	कट ग्रीन्फ़ैल्ड वेंतुरेस प्राइवेट लिमिटेड
297	59485	वृधि त्रदिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
298	59554	चलें-ओ-मन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
299	59727	ई-एडीट् सोल्युशन्स लिमिटेड
300	59868	बसकोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
301	60023	एस वोक्फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
302	60082	तल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
303	60097	न ह रेअतिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
304	60325	रेप्लेट् सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
305	60331	एड् कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
306	60342	विल्डू टेक सोल्युशन्स लिमिटेड
307	60352	रिची रिच एअल्टिएस प्राइवेट लिमिटेड
308	60566	अल्फा इन्तेर्लिक दूर्स एंड ब्रवेल प्राइवेट लिमिटेड
309	61044	ग.अ. कांसुल्टान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
310	61120	तनुष इन्टीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
311	61128	ग.म.शेल्तेर्स प्राइवेट लिमिटेड
312	61205	न र क एंगिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड
313	61258	ऐबक वाटर कुलेर्स प्राइवेट लिमिटेड
314	61310	कोतेक्स स्पिन्निंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
315	61374	गोल्डप्लस अप्पारेल् प्राइवेट लिमिटेड
316	61409	स्कोलर कांसुल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
317	61438	पावसेन प्राशा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
318	61510	ओमनी विरेलेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
319	61535	ईटीए एलिवेटर इन्डस्ट्रीयल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
320	61610	इन्टेलीजेन्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
321	62062	सत साइबर टेक्नोलोगिएस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
322	62084	करुर सल्वर्द होम टेक्स्टिलेस प्राइवेट लिमिटेड
323	62259	फोरेवर होल्डिंग्स एंड रियल एस्टातेस प्राइवेट लिमिटेड
324	62281	गकक औत्सोर्किन्ग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
325	62472	ब्लू टेक्नोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
326	62519	शान मेड केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
327	62614	ब्लू कट्स टेक्नोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
328	62760	अन्ने पोल्टेने मन्फक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
329	62795	अच्युराते ओवेर्सास ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
330	63096	सफल चैन फ्रेड्रिक्त लोकिस्तिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
331	63184	व्.स.न.क. होम टेक्स्टिले प्राइवेट लिमिटेड
332	63240	स्कम हेअव्य कुइप्मेन्त इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
333	63645	हॉक्टीलियन टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड
334	63651	किल्लिओन टेक्नोलॉग्य प्राइवेट लिमिटेड
335	63710	मनीष सोलुतिऑस प्राइवेट लिमिटेड
336	63844	डा इन्फोसिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
337	63876	माक्स मेडिकल कांसुल्टान्च्य सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
338	64031	फोएनिक्स स्पस्ट तेच एन्तेर्तेन्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
339	64114	कुँसर सीफूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
340	64171	शिव स स किल्स प्राइवेट लिमिटेड
341	64210	स्विच सॉफ्टवेर सोलुतिऑस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
342	64217	फऑदेमंद टेचनोलोगिएस प्राइवेट लिमिटेड
343	64468	इन्तेग्रतेद केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
344	64557	सैना शूस प्रैवेट लिमिटेड
345	64582	अप्पुस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
346	64660	अल्फा लाबेल & पच्छिंग सोलुतिऑस प्राइवेट लिमिटेड
347	65040	इनफिनिटी रीतील वेंतुरेस लिमिटेड
348	65235	सिटी अगो प्रोदुक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
349	65369	क्रिश्चय कांसुल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
350	65531	B2V फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
351	65869	समज इंजीनियरिंग सर्विसेस एंड कांसुल्टान्च्य प्राइवेट लिमिटेड
352	65986	कव्व लोगिस्टिक कांसुल्टान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
353	65996	संवेद रेसेअर्च लब्स प्राइवेट लिमिटेड
354	66346	सीवार्ता उब्लिकतिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
355	66361	मदुरै एको इलेक्ट्रो प्लाटिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड
356	66508	नह फैशन प्राइवेट लिमिटेड
357	66546	मिलानो लन्ततिओन्स प्राइवेट लिमिटेड
358	66896	अवेनुएस कोन्नेक्ट एक्कुइल्मेन्त सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 25th May 2011

No. A-35018/2/2009-Admn. II.—In continuation of this Office Notification of even number dated 24.02.2011, the period of ad-hoc deputation of Shri Rajesh Joshi, Steno Grade 'C' (P.A.), UPSC to the post of Staff Officer to Hon'ble Chairman, UPSC in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- (Grade 'B' Gazetted) is extended for a further period of 3 months with effect from 24.05.2011 to 23.08.2011 (giving a technical break 23.05.2011) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

K. M. SASIDHARAN,  
Under Secy. (Admn.)

No. A-35018/2/2009-Admn. II.—In continuation of this Office Notification of even number dated 24.02.2011, the period of ad-hoc deputation of Shri Awadhesh Thakur, Steno UPSC to the post of Staff Officer to Secretary, UPSC in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- (Grade 'B' Gazetted) is extended for a further period of 3 months with effect from 24.05.2011 to 23.08.2011 (giving a technical break 23.05.2011) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

K. M. SASIDHARAN  
Under Secy. (Admn.)

The 4th July 2011

No. A-60011/27/2011-RTI Cell (Admn.)—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following Officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Appellate Authorities in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Appellate Authority	Subject matter	Name of the CPIO
1	2	3	4
1.	Sh. S. B. Saroha, JS (Admn. GV&RTI)	All RTI related matters pertaining to Administration, Accounts and Vigilance including all Personnel and Establishment RTI matters of Gazetted and Non-Gazetted staff of UPSC.	Sh. K. M. Sasidharan Under Secretary (Admn.-IV & OM&WS)
2.	Sh. S. B. Saroha, JS (Admn. GV&RTI)	All policy matters pertaining to Service rules/regulations and amendments thereto, UPSC (exemption from consultation) regulations, and references received for advice/recommendations of the UPSC, Annual Report of UPSC, references received from various State PSCs including Conference of State PSCs.	Sh. Manoj Srivastava, Under Secretary (S-II.)
3.	Sh. Y. P. Gupta, JS(S-IA&D)	All matters pertaining to disciplinary cases (referred to the Commission) involving imposition of major penalty.	Sh. S. K. Jha, Deputy Secretary (S-I)
4.	Sh. Y. P. Gupta, JS(S-IA&D)	All matters pertaining to disciplinary cases (referred to the Commission) involving imposition of minor penalty and pension cuts of Group 'C' and 'D' posts	Sh. A. K. Mishra Under Secretary (S-I)
5.	Sh. Kamal Bhagat, JS(R-II)	All matters pertaining to Civil Services Examinations, Policy matters regarding Examinations, matters related to Confidential Branch and matters regarding arrangement of all Exams/RTs conducted by UPSC.	Dr. Kulbir Singh, JD(E)
6.	Sh. Kamal Bhagat, JS(R-II)	All matters including matters related to Confidential Branch in respect of Central Police Forces Examination, NDA & NA I&II, CDS I&II Examination.	Shri S. K. Dey, US(Exam)



1	2	3	4
7.	Sh. Kamal Bhagat, JS(R-II)	All the matters including matters related to Confidential Branch in respect of Indian Forest Service Examination, Geologist Examination, Special Class Railway Apprentices Examination and other misc. matters concerning Exam. Branch.	Smt. Pushpa Bisht, US(Exam)
8.	Sh. Kamal Bhagat, JS(R-II)	All matters including matters related to Confidential Branch in respect of Combined Medical Service Examination, Engg. Service Examination, IES/ISS Examination and SO/Steno Grade B LDCE	Shri Chaman Lal Guleria, US(Exam)

K. M. SASIDHARAN  
Under Secy. (Admn.)

#### CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 7th July 2011

No. DPPERS.I/2011/2140/3/69/2011-Pers.-I—The President is pleased to appoint Shri Arnab Ghosh, Dy. SP (DEB), Nadia District of West Bengal Police as Additional Supdt. of Police in CBI on deputation basis with effect from 17.06.2011(FN) for a period of 5 years or till further orders, whichever is earlier.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

#### CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 30th June 2011

No. 2/54/10-Admn./134805—The Competent Authority, Central Vigilance Commission, hereby appoints Smt. Davinder Kaur, Assistant in the Commission as Section Officer on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 05th July, 2011 for a period of six months or till further orders, whichever is earlier.

2. Her appointment to the post of Section Officer is purely on ad-hoc basis under proviso to Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules 2007 and will not bestow upon her any claim for regular appointment.

R. N. NAYAK  
Officer on Spl. Duty (Admn.)

No. 2/31/08-Admn./134806—The Competent Authority, hereby appoints Smt. Harjeet Kaur, Assistant in the Commission as Section Officer on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 01st July, 2011 for a period of six months or till further orders, whichever is earlier.

2. Her appointment to the post of Section Officer is purely on ad-hoc basis under proviso to Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules 2007 as amended from time to time and will not bestow upon her any claim for regular appointment.

R. N. NAYAK  
Officer on Spl. Duty (Admn.)

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 6th July 2011

No. E-16013/RRV-IPS/ADG/2011/Pers.-I/191—The President is pleased to appoint Shri R. R. Verma, IPS (BH : 1978) as Additional Director General, Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the afternoon of 01.07.2011.

INDERJEET KAUR  
Dir. (Police)

The 7th July 2011

No. E-16013(1)/4/2009/Pers.-I/193—On attaining the age of Superannuation, Dr. Kashmir Singh, IPS (UP : 1978) has relinquished the charge of the post of Additional Director General, Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the afternoon of 30th June 2011.

INDERJEET KAUR  
Dir. (Police)

#### LNJN NATIONAL INSTITUTE OF CRIMINOLOGY AND FORENSIC SCIENCE

Delhi-110085, the 2nd July 2011

No. 3/10/2008-LNIN NICFS—The President is pleased to appoint Shri Sankalp Anand as Lecturer (Sociology) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Group 'A' Entry) with effect from the forenoon

of 09th June, 2011 in the LNJJN National Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs, Delhi on direct recruitment through Union Public Service Commission, New Delhi on regular basis. He will be on probation for a period of one year from the date of his appointment.

KAMLENDRA PRASAD  
Dir.

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 30th June 2011

No. O.II. 4455/2011 Pers. (DA.-3)—Consequent on acceptance of his resignation from Govt. Service without Pensionary benefits, Shri Umesh Kumar Raguvanshi, 2nd in-command (IRLA-4455) of 85 Bn CRPF relinquished the charge of his post at Dte. Genl, CRPF, New Delhi i.e. at a place other than his declared HQs as permitted by the Competent Authority, on the afternoon of 31st May, 2011. Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force w.e.f. 31.05.2011 (AN).

R. N. MISRA  
DIG (Pers.)

The 4th July 2011

No. O.II. 3873/11-Pers.(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Amar Singh Jaswal as Medical Officer (Dental Surgeon) (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 28.06.2011 till further orders. He is posted to Composite Hospital, CRPF, Silchar.

R. N. MISRA  
DIG (Pers.)

The 5th July 2011

No. O-II-6395/2011-Pers. (DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 04.12.2010 for Voluntary Retirement from Service, Shri P. K. Haridasan, Assistant Commandant (IRLA : 6395) of 66 Bn. CRPF relinquished the charge of his post of the forenoon of 01st May, 2011. Accordingly, he has been struck off the strength of his department with effect from 01.05.2011 (FN).

R. N. MISRA  
DIG (Pers.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
(DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY)

Dhanbad, the 4th July 2011

No. Law/G-22/11/01—I, Satish Puri, Chief Inspector of Mines and also designated as Director General of Mines Safety, by virtue of powers conferred on me under section

75 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of all the notifications published earlier in the Gazette of India on the subject, do hereby, generally authorize all Officers of this Directorate who are Sub-Ordinate to the Chief Inspector of Mines and who are appointed as Inspectors of Mines under Sub-Section (1) of the Section 5 of the said Act, to institute prosecutions for any offence under the said Act, against the Owner, Agent or Manager of any mine situated within their respective Inspection Jurisdiction as declared under Sub-Section (3) of Section 6 of the said Act.

SATISH PURI  
Chief Inspector of Mines and  
Dir. Gen. of Mines Safety

MINISTRY OF MINES  
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 30th June 2011

No. A-19011/269/2007-Estt.-A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee Shri S. P. Goyal, Regional Controller of Mines, is promoted to the post of Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Ajmer w.e.f. 20.06.2011 (FN).

S. DASGUPTA  
Sr. Admn. Officer  
For Controller General

The 1st July 2011

No. A-19012/501/2011-Estt. A—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Niranjana Kumar, to the post of Assistant Administrative Officer in Indian Bureau of Mines, Goa w.e.f. 13.06.2011 (FN).

S. DASGUPTA,  
Senior Admn. Officer  
For controller General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 7th July 2011

No. 20/3(5)/2010-CCS/24—The President is pleased to appoint Shri B. Jagan Mohan Rao, Staff Relations Officer (PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Hyderabad of this Department as Administrative Officer-III (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade pay Rs. 6,600/-) in Directorate of Construction, Services and Estate Management, Mumbai w.e.f. 20.06.2011 (FN) until further orders.

C.D. CHACKO  
Under Secy.

No. 20/3(5)/2010-CCS/25—On attaining the age of superannuation, Shri G. Sankaran, Deputy Establishment

Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-),  
Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department,  
retired from Government Service on 31.05.2011(AN).

C.D. CHACKO  
Under Secy.

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED  
TECHNOLOGY

Indore, the 7th July 2011

No. RRCAT/Admin/2010/R-805/748—The President is  
pleased to appoint the following Officials on promotion to the  
Grades, Pay Band and date as indicated against their names in  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore:—

Sr. No.	Name	Present Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promoted Grade(Pay Band +Grade Pay)	Promotion w.e.f. (Forenoon)
1	2	3	4	5
Dr./S/Shri/Smt.				
1.	C.P. Singh	Scientific Officer/D (PB: 3), Rs. 15,600— 39,100+ Grade Pay Rs. 6,600/-	Scientific Officer/E (PB: 3), Rs. 15,600— 39,100+Grade Pay Rs. 7,600/-	01.07.2010
2.	J.S. Pakhare	—do—	—do—	01.07.2010
3.	M.K. Saxena	—do—	—do—	02.07.2010
4.	Bhupinder Singh	—do—	—do—	01.07.2010
5.	S.P. Ram	—do—	—do—	01.07.2010
6.	Khageshwar Sahoo	—do—	—do—	05.07.2010
7.	Himanshu Singhal	—do—	—do—	01.07.2010
8.	M.K. Swami	—do—	—do—	01.07.2010
9.	P.D. Latthe	—do—	—do—	01.07.2010
10.	Umakant Shrivastava	—do—	—do—	01.07.2010
11.	Manish Bagre	—do—	—do—	01.07.2010
12.	Sanjeev Ramteke	—do—	—do—	01.07.2010
13.	S.G. Goswami	—do—	—do—	01.07.2010
14.	R.S. Saini	—do—	—do—	01.07.2010
15.	Shankal Lal	—do—	—do—	01.07.2010
16.	R.K. Arora	—do—	—do—	01.07.2010
17.	V.K. Sharma	—do—	—do—	01.07.2010
18.	Surendra Yadav	—do—	—do—	01.07.2010
19.	Aniruddha Bose	—do—	—do—	01.07.2010
20.	Nitin Lunani	—do—	—do—	01.07.2010
21.	Abodurrahim	—do—	—do—	01.07.2010
22.	A.K. Gupta	—do—	—do—	01.07.2010

1	2	3	4	5
23.	G.N. Tiwari	Scientific Officer/C (PB: 3), Rs. 15,600— 39,100+ Grade Pay Rs. 5,400/-	Scientific Officer/D (PB: 3), Rs. 15,600— 39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-	01.07.2010
24.	V.K. Dubey	—do—	—do—	01.07.2010
25.	Ramakanta Mahakud	—do—	—do—	01.07.2010
26.	Jitendra Kumar	—do—	—do—	01.07.2010
27.	Sonika Tanwani	—do—	—do—	01.07.2010
28.	Rahul Aggarwal	—do—	—do—	01.07.2010
29.	Gurupreet Singh	—do—	—do—	01.07.2010
30.	Mohammad Tayyab	—do—	—do—	01.07.2010
31.	S.K. Agrawal	—do—	—do—	01.07.2010
32.	Hemant Krishna	—do—	—do—	01.07.2010
33.	Amar Singh	—do—	—do—	01.07.2010
34.	Narendra Bharadwaj	—do—	—do—	01.07.2010
35.	S.V. Kokil	—do—	—do—	01.07.2010
36.	Kamal Singh	—do—	—do—	01.07.2010
37.	Mangilal Ekwale	—do—	—do—	01.07.2010
38.	Mohammad Mukhtar	—do—	—do—	01.07.2010
39.	Sahadeo Suryavanshi	—do—	—do—	01.07.2010
40.	Ram Kumar	—do—	—do—	01.07.2010
41.	Vijay Kumar	—do—	—do—	01.07.2010
42.	Nageshwar Rao Pothana	—do—	—do—	01.07.2010
43.	Arup Ratan Jana	—do—	—do—	01.07.2010
44.	S. K. Nath	—do—	—do—	01.07.2010
45.	Chirag Bhai Patidar	—do—	—do—	01.07.2010
46.	Akhilesh Tripathi	—do—	—do—	01.07.2010
47.	Alok Singh	—do—	—do—	01.07.2010
48.	K.V.A.N.P.S. Kumar	—do—	—do—	01.07.2010
49.	L.B. Rana	Scientific Assistant/E (PB: 3), Rs. 15,600— 39,100+ Grade Pay Rs. 5,400/-	Technical Officer/D (PB: 3), Rs. 15,600— 39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-	01.07.2010

1	2	3	4	5
50.	Biju M.G.	Scientific Officer/SB (PB: 2), Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-	Scientific Officer/C (PB: 3), Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-	01.07.2010
51.	Sujan Kar	—do—	—do—	01.07.2010
52.	Riyaz Ahmed Khan	—do—	—do—	01.07.2010
53.	Tripti Bansod	—do—	—do—	01.07.2010
54.	Deepchand	—do—	—do—	01.07.2010
55.	O.P. Joshi	Scientific Assistant/D (PB: 2), Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-	Technical Officer/C (PB: 3), Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-	01.07.2010

B.K. JENA  
Chief Admin. Officer

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 5th July 2011

Ref: DPS/07019/Rectt./2935—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri P.V.S. Subrahmanyam, Sr. Storekeeper (Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,200/-), Hyderabad Regional Stores Units (HRSU), DPS, Hyderabad, as Assistant Stores Officer in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 28th June 2011 in the same unit, until further orders.

CATHERINE RAJ  
Admin. Officer-III

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad, the 7th July 2011

No. NFC/PAR-I/04/06/526—Chief Executive, NFC appoints Shri B. Satyanarayana, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.07.2011 to 31.08.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K.P.S. PILLAI  
Admin. Officer

Ref: NFC/PAR-I/04/06/527—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/486 dated 25.06.2011, the adhoc appointment of Shri V. Bharat Bhushan, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of

Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 20.07.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K.P.S. PILLAI  
Admn. Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/528—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/485 dated 26.06.2011, the adhoc appointment of Smt. J. Swaroopa Rani, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 13.06.2011.

K.P.S. PILLAI  
Admn. Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/529—Chief Executive, NFC appoints Smt. P.V.S. Phani Sri, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 01.07.2011 to 31.08.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K.P.S. PILLAI  
Admn. Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/530—Chief Executive, NFC appoints Shri S. Koteswar Rao, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 01.07.2011 to 31.08.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K.P.S. PILLAI  
Admn. Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/531—Chief Executive, NFC appoints Smt. D. Vijanthi Mala, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 01.07.2011 to 31.08.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K.P.S. PILLAI  
Admn. Officer

#### INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 22nd June 2011

No. IGCAR/PF/11013/10284/2011-R-913—The President is pleased to appoint Shri S. Sengottuvel in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of Department of Atomic

Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in an initial pay of Rs. 27,630/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 09.05.2011 in a temporary capacity until further orders.

P. RAMAKRISHNAN  
Chief Admn. Officer

No. IGCAR/PF/11013/10290/2011-R-914—The President is pleased to appoint Shri R. Raghunath in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of Department of Atomic Energy as Technical Officer/Engineer Grade 'C' in an initial pay of Rs. 21,000/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 27.05.2011 in a temporary capacity until further orders.

P. RAMAKRISHNAN  
Chief Admn. Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Daanee Chit and Finance Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 11th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00188—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Daanee Chit and Finance Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bupa India Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 13th May 2011

No. 560(5)/184608—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bupa India Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Executive Connections Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 13th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00100—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Executive

Connections Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sixth Dimension Multimedia Private Limited

New Delhi-110019, the 24th June 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00577—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sixth Dimension Multimedia Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zermatt Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 4 July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00355—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zermatt Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nitma Services Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/24378—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nitma Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vidyajyoti Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/103988—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vidyajyoti Technologies Private

Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. Caps Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/31776—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. Caps Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sai Beverages Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/27632—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sai Beverages Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nice Electricals Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/20951—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nice Electricals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Future Bonds and Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/6778—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Future Bonds and Holdings Private

Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Super Agencies Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/5032—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Super Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kapsons Agro Chem Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/11285—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kapsons Agro Chem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Delhi Public Goods Transport Company Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/2409—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delhi Public Goods Transport Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aakriti International Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/12246—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Aakriti International Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ultitech Tools and Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/15924—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ultitech Tools and Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jagmohan Tuteja and Associates Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/27956—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jagmohan Tuteja and Associates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Keshav Auto Engineering Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/167861—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Keshav Auto Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. S. Footwear Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/132058—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. P. S. Footwear Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Genext Holdings Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/190131—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Genext Holdings Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Seraphic Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/108533—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seraphic Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Invest Right Financial Services (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/50934—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Invest Right Financial Services (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. S. Infocom Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/104663—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. R. S. Infocom Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. NE-IM Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/125812—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. NE-IM Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. CatchUs Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/161785—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. CatchUs Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zip Computech Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/164881—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zip Computech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trinity Horne India Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/170576—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Trinity Horne India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alligator Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/181363—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alligator Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Som Flavours Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/90813—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Som Flavours Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pune Waste Management Company Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/146470—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pune Waste Management Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. K. Jain & Associates Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/55083—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956



that the name of M/s. J. K. Jain & Associates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bigcare Realestate & Marketing Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/160279—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bigcare Realestate & Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Contour Promotions Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/23961—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Contour Promotions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. JMD Polymers Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/102289—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. JMD Polymers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Red Rain Solution Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/143591—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Red Rain Solution Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Icall Communications Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/178697—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Icall Communications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arihant Automation (India) Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/79087—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arihant Automation (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ram Defence Systems & Support Services Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/206745—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ram Defence Systems & Support Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manu Pipe Line Services Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/36467—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Manu Pipe Line Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sharp Line Electrocircuits Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/27390—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sharp Line Electrocircuits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bluebonnet Projects Private Limited  
New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/177338—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bluebonnet Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Power4 India Wind-Projects Private Limited  
New Delhi-110019, the 8th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00124—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Power4 India Wind-Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies  
Jaipur-302001, the 30th June 2011

No. RoC/JPR/560(3)/866—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	033142	M/s. Raath Computech Private Limited
2.	011378	M/s. Durgesh Builders Private Limited
3.	011377	M/s. Bhairon Builders Private Limited
4.	011376	M/s. Choice Premises Private Limited
5.	013377	M/s. Bijwari Cold Storage Private Limited
6.	020142	M/s. Aquagem Pharma Impex Private Limited
7.	012965	M/s. R. G. Projects Private Limited
8.	019682	M/s. Life Time Solutions Private Limited
9.	025550	M/s. Abhyanand Minerals Private Limited
10.	007398	M/s. BMB Musics Private Limited
11.	032762	M/s. Bansal Road Constructions Private Limited
12.	029953	M/s. ANT Speed Infotech Private Limited
13.	026619	M/s. Green Pathlab and Diagnostic Private Limited
14.	001968	M/s. Tak and Co. Private Limited
15.	017632	M/s. Chiragmani Distributors Private Limited
16.	028202	M/s. Thoughtspan India Private Limited
17.	027356	M/s. Rsquare Trademart Private Limited
18.	025322	M/s. Anukriti Trademarketing Private Limited
19.	032498	M/s. Eventus Consultancy Services Private Limited
20.	001878	M/s. Udaipur Khaniz Udyog Private Limited

S. P. KUMAR  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies  
Jaipur-302001, the 30th June 2011

No. RoC/JPR/560(5)/867—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	023985	M/s. Mahi Cement (Banswara) Limited
2.	012898	M/s. Vantage Gems (India) Private Limited
3.	011026	M/s. Strips and Grips (India) Private Limited
4.	007458	M/s. Daksh Cement and Minerals Private Limited
5.	005855	M/s. Krishna Communications Private Limited
6.	024247	M/s. Silver Shine Construction Private Limited
7.	013094	M/s. Swastik Beverages Private Limited
8.	016854	M/s. Chaufla Computers Private Limited
9.	012372	M/s. US Projects Private Limited
10.	015554	M/s. Madhav Cottfab (India) Private Limited
11.	003660	M/s. M. L. Baheti Hospital and Research Centre Private Limited
12.	000347	M/s. Rajasthan Investors Private Limited
13.	007409	M/s. Man Communication Engineers Private Limited
14.	009393	M/s. Shubham Infenco Private Limited
15.	013276	M/s. S. M. Fincon Forests Limited
16.	005394	M/s. Jaisalmer Export Import Private Limited
17.	002094	M/s. M. B. Lohia and Sons Investments Private Limited
18.	004521	M/s. Kiran Fibre and Fabrics Private Limited
19.	023172	M/s. Reva Minchem Minerals Private Limited
20.	023211	M/s. Space Star Motion Pictures Private Limited
21.	012924	M/s. Prudent Foods and Proteins Private Limited
22.	021592	M/s. Aura E-Solutions Private Limited
23.	014827	M/s. Supreme Mech and Fab Private Limited
24.	023077	M/s. Bhargavi Buildhomes Private Limited

1	2	3
25.	013703	M/s. Friends Offsets Private Limited
26.	003914	M/s. Singhal Refrigeration Private Limited
27.	026078	M/s. Zeb Innovation and Advertising Private Limited
28.	015161	M/s. Thar Food and Beverages Private Limited
29.	007637	M/s. Prime Plasto Packaging Private Limited
30.	024350	M/s. Neo Prime Consultants Private Limited
31.	023777	M/s. Ved Prakash Lohiya Properties Private Limited
32.	020856	M/s. Jaipur Express Services Private Limited
33.	018144	M/s. Chandkheri Agro Sales Services Private Limited
34.	023631	M/s. Babu Rajesh Land Developers Private Limited
35.	023119	M/s. Shivshakti Towers Private Limited
36.	023276	M/s. Decor Enterprises Private Limited
37.	022068	M/s. Dimples Jewellers Private Limited
38.	005588	M/s. Alwar Farmers Machinery House Private Limited
39.	019386	M/s. Uprising Insurance and Marketing Consultants Private Limited
40.	001951	M/s. Sancheti Steels Private Limited
41.	002029	M/s. Sonkiya Productions Limited
42.	005683	M/s. Kuber Cements Private Limited
43.	005945	M/s. Tagore Computer Private Limited
44.	007404	M/s. Fivestar Colour Labs Private Limited
45.	012793	M/s. Arsi Residency Private Limited
46.	012964	M/s. Vikram Granimarmo Private Limited
47.	013794	M/s. Bonton Polyplast Private Limited
48.	015141	M/s. Ajay Motor Lease Private Limited
49.	015227	M/s. Royal Swim and Gym Centre Private Limited
50.	015853	M/s. Matwasan Foods Private Limited
51.	016005	M/s. Gangotri Distributors Private Limited
52.	016038	M/s. Nokoda Bhairav Dairy Foods Private Limited
53.	016341	M/s. Thar Software Private Limited
54.	016392	M/s. Pixelet Grainyx Private Limited

1	2	3	1	2	3
55.	017214	M/s. Hadoti Marketing Private Limited	84.	014452	M/s. Paras Garments Private Limited
56.	017823	M/s. Radika Communication Private Limited	85.	005553	M/s. Tirupati Glazer Private Limited
57.	018603	M/s. Dhanji Suitings Private Limited	86.	008260	M/s. Natani Granites Marbles and Stones Private Limited
58.	018758	M/s. Jhunthra Consultants Private Limited	87.	023559	M/s. Shekhawati Kisan Agro Private Limited
59.	019294	M/s. Adarsh Bio Herbal Private Limited	88.	024092	M/s. Mascot Buildestate Private Limited
60.	019626	M/s. Wellherb Oils Private Limited	89.	010408	M/s. Tatia Consultancy Services Private Limited
61.	020418	M/s. Omerzeb Ispat Private Limited	90.	025200	M/s. Laser Retail Private Limited
62.	020620	M/s. Vision Beverages Private Limited	91.	018488	M/s. Sita Ram Developers and Colonizers Private Limited
63.	021178	M/s. Jagdish Prasad and Sons Trading Private Limited	92.	002237	M/s. MGM Securities (India) Private Limited
64.	021721	M/s. Open Earth Agro Tech Private Limited	93.	001590	M/s. Sharma X-Ray and Digrositic Clinic Private Limited
65.	022064	M/s. Stride Vision Tradelinks Private Limited	94.	016223	M/s. Kalindee Heritage and Hospitality Private Limited
66.	022386	M/s. U. D. Pharma Private Limited	95.	019944	M/s. Durga Shakti Motors Private Limited
67.	022410	M/s. Shiv Ganga Enclave Private Limited	96.	019472	M/s. Quadra Multitech Private Limited
68.	022432	M/s. Hi-Life Colonizers Private Limited	97.	021946	M/s. Jat Biofuel Private Limited
69.	022433	M/s. Bright Value Colonizers Private Limited	98.	003532	M/s. Chirag Synthetics Private Limited
70.	022435	M/s. Dolphin Colonizers Private Limited	99.	005928	M/s. Span Foods Private Limited
71.	022725	M/s. Creative Buildmart Private Limited	100.	019263	M/s. Samiksha Chit Fund Private Limited
72.	023279	M/s. Apex Infosoft Private Limited	101.	014812	M/s. Ram Garh Resorts Private Limited
73.	024066	M/s. Amit Marmotech Private Limited	102.	004857	M/s. J. R. Alloy Castings Private Limited
74.	024083	M/s. Saprev Outsourcing Solutions Private Limited	103.	004710	M/s. Himanshu Conductors (India) Private Limited
75.	024285	M/s. Kings Empire Properties and Colonizers Private Limited	104.	010852	M/s. Tripura Cement Limited
76.	024937	M/s. Bhikshu Engineering Consultants Private Limited	105.	003573	M/s. Navarang Synthetics Private Limited
77.	024831	M/s. Nikhilam Developers and Builders Private Limited	106.	006020	M/s. Bhagyashree Fuels Private Limited
78.	010960	M/s. Shriyam Creations Private Limited	107.	011694	M/s. Sonal Diamond Tools Private Limited
79.	026242	M/s. Saath Saath Hotels Private Limited	108.	026140	M/s. Thaar Airways Training Private Limited
80.	022819	M/s. Krishna Ramv Constructions Private Limited	109.	024090	M/s. Maestro Properties Private Limited
81.	024515	M/s. Harbour Security Services Private Limited	110.	023558	M/s. Shekawati Biotech Private Limited
82.	009390	M/s. Fulwani Overseas and Investments Private Limited	111.	025174	M/s. Kriti Messenger Services Private Limited
83.	019405	M/s. Shree Rang Badi Balaji Realestate Private Limited	112.	019489	M/s. Ace Finconsultants Private Limited
			113.	016244	M/s. Idea2Net Infosys Private Limited
			114.	024926	M/s. Shree Khatushyam Infratech India Limited
			115.	006640	M/s. Jaka Designs Private Limited

S. P. KUMAR  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suhas Trexports Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00127/2438—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Suhas Trexports Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanaktej Iron & Steel Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00138/2441—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Kanaktej Iron & Steel Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. White OAK Furniture Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00347/2444—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. White OAK Furniture Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. First Option Telefilms Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00341/2447—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. First Option Telefilms Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Robosoft Trading Company Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00330/2450—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Robosoft Trading Company Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pancharatna Agriculture Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00291/2453—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Pancharatna Agriculture Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Santa Monica Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00083/2458—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Santa Monica Hotels Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Squaw Valey Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00096/2460—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Squaw Valey Hotels Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tahoe Hotels Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00099/2463—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Tahoe Hotels Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rama Multico Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00106/2466—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Rama Multico Exports Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dan-Foss Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00206/2469—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Dan-Foss Impex Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bancroft and Company (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00211/2472—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Bancroft and Company (India) Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ralin Project Finance Consultancy Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00224/2476—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Ralin Project Finance Consultancy Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Loadex Machinery Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00232/2479—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Loadex Machinery Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rasta Management Consultants Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00247/2482—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Rasta Management Consultants Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Birbal Investment and Trading Company Private  
Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00240/2485—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Birbal Investment and Trading Company Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Century Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00264/2488—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. New Century Exports Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tara Infotech Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00275/2491—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Tara Infotech Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. M. Share Services Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00323/2494—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. C. M. Share Services Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pragpur Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 1st July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00020/2498—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Pragpur Trading Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indu Construction and Technical Services Private  
Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00138/442—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Indu Construction and Technical Services Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off the register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Shipping Clearing and Forwarding Private  
Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00144/443—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Shree Shipping Clearing and Forwarding Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. BRV India Advisors Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00126/444—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. BRV India Advisors Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vision Premises Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00104/445—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Vision Premises Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zero Six Entertainment Networks Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00122/446—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Zero Six Entertainment Networks Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rahul Edusolutions Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00119/447—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Rahul Edusolutions Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Semit Products Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00116/448—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Semit Products Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. VCAM Investment Managers Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00100/449—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. VCAM Investment Managers Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. N. K. Mercantile Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00088/450—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. S. N. K. Mercantile Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bluegrille Food Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00091/451—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Bluegrille Food Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Signature-Upstart Research & Evaluation Private  
Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00097/452—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Signature-Upstart Research & Evaluation Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off the register and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sai Krupa Petrochem Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00075/453—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Sai Krupa Petrochem Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saitirh Hospital Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00094/454—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Saitirh Hospital Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sodexo Food Services India Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00084/455—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Sodexo Food Services India Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SPAJ Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00080/456—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. SPAJ Exports Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manmir Engineering Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00066/457—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Manmir Engineering Industries Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajasthan Pipes and Profiles Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00031/458—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Rajasthan Pipes and Profiles Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Taurine Europower Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00025/459—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Taurine Europower Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hardik Com Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00019/460—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Hardik Com Private Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gul Lubricants Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00145/461—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Gul Lubricants Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Panorama Multitrade Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00253/462—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Panorama Multitrade Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Incon Paints and Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00256/463—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Incon Paints and Chemicals Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Virtual Text Educator Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00063/464—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Virtual Text Educator Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

PADMAVATHI BALAKRISHNAN  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parekh Floor & Furnishings Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00727/466—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Parekh Floor & Furnishings Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Guizzetti Consulting Company Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00065/467—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Guizzetti Consulting Company Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ALMA IT Consulting Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00089/468—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. ALMA IT Consulting Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tia Shubham Constructions Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00266/469—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Tia Shubham Constructions Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajmudra Multi Services Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00483/470—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Rajmudra Multi Services Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Victaulic India Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00533/471—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Victaulic India Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. H. P. Fabrics Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00102/472—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. J. H. P. Fabrics Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cougar Mindware Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00074/473—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Cougar Mindware Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Planet Watches Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00082/474—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Planet Watches Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haji Dairy Products Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00151/475—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Haji Dairy Products Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Scientific-Atlanta India Sales and Service Private  
Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00054/476—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Scientific-Atlanta India Sales and Service Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off the register and the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quantum Equity Advisors Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00014/477—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Quantum Equity Advisors Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Betterfly Travels Private Limited

Mumbai-400002, the 6th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2011/00031/478—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Betterfly Travels Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VIJAYA NAGORAO KHANDARE  
Dy. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Patna, the 30th June 2011

No. RoC/PAT/560(5)/EES-2011/2532—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	011906	M/s. Shakambhari Construction Private Limited
2.	010812	M/s. Chhinna Mastike Ferrous Private Limited

O. P. SHARMA  
Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Patna, the 30th June 2011

No. RoC/PAT/560(3)/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	012769	M/s. Priyadarshi Purnanand Motors Private Limited
2.	004212	M/s. Shashi Projects Private Limited

O. P. SHARMA  
Registrar of Company  
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prasad Motor Finance Private Limited

Patna, the 6th July 2011

No. ROC/PAT/560(5)/EES-2011/3709—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prasad Motor Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

O. P. SHARMA  
Registrar of Company  
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kolkata-700 020, the 7th July 2011

No. RoC/WB/EES-560/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	029551	M/s. Ghosh & Co (Textiles) Private Limited
2.	056988	M/s. Arhitech Engineers Private Limited
3.	085679	M/s. Filt-O-Fab Private Limited
4.	099559	M/s. Metrail India Private Limited
5.	080070	M/s. Dynamic Technologies Private Limited
6.	129945	M/s. CA Realtors Private Limited
7.	130918	M/s. Nivisa Realtors Private Limited
8.	098080	M/s. Strategic Hospitality Focus Private Limited
9.	141357	M/s. KSB Wines Private Limited
10.	111962	M/s. A Plus Learning Solutions India Private Limited
11.	145819	M/s. Rainbow-E-Shopee Private Limited
12.	129108	M/s. Star Vintrade Private Limited
13.	135515	M/s. Maplf Viturreade Private Limited
14.	135595	M/s. Sankalp Dealcom Private Limited
15.	129112	M/s. Skylark Vintrade Private Limited
16.	135428	M/s. Unique Commosales Private Limited
17.	135418	M/s. Woodland Dealers Private Limited
18.	135429	M/s. Blackbird Dealers Private Limited
19.	135421	M/s. Solvent Vincom Private Limited
20.	129161	M/s. GM Distributors Private Limited
21.	056750	M/s. Divine Iron & Steel Private Limited
22.	060256	M/s. Empee Finvests Private Limited

HARIHARA SAHOO  
Asstt. Registrar of Companies  
Bihar & Jharkhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Shillong-793001, the 24th June 2011

No. RoC/SH/560(5)/2011/947—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	007891	M/s. A. P. Bamboo Private Limited
2.	002804	M/s. A to Z Industries Private Limited
3.	004891	M/s. Abahani Finvest and Trading Private Limited
4.	005652	M/s. ABPH Garments Private Limited
5.	007973	M/s. Adequate Informative Marketing Private Limited
6.	006239	M/s. Advance Building Construction Comapny Private Limited
7.	006310	M/s. AIE Valley Construction Private Limited
8.	006628	M/s. Ajanta Ellora (India) Private Limited
9.	004104	M/s. Ajir Sambad Publications Private Limited
10.	000943	M/s. Alpha Private Limited
11.	005400	M/s. Alpine Tea Co. Limited
12.	004931	M/s. Ambika Hotels and Resorts Private Limited
13.	008405	M/s. Ampersand Trading Private Limited
14.	003962	M/s. Analac Services Private Limited
15.	006836	M/s. Anant Power Technology Private Limited
16.	005014	M/s. Anil Deep Developers Private Limited
17.	004037	M/s. Anupam Prints and Associates Private Limited
18.	005647	M/s. Any Time Tea Company Limited
19.	006296	M/s. Apica Plantations Private Limited
20.	008038	M/s. Apka Net Marketing (India) Private Limited
21.	007503	M/s. Arindam Builders & Associated Services Private Limited
22.	007589	M/s. Armaan Events Private Limited

1	2	3
23.	004801	M/s. Aruna Finvest Private Limited
24.	005167	M/s. Arunachal Builders and Services Private Limited
25.	003044	M/s. Arunachal Finance and Housing Private Limited
26.	004003	M/s. Arunachal Meat Products Private Limited
27.	008164	M/s. Arunachal Pradesh Security Consultants Private Limited
28.	003277	M/s. Arunachal Steels Private Limited
29.	002670	M/s. Asbab Axom Private Limited
30.	005424	M/s. Ashiana Real Estates Private Limited
31.	008267	M/s. Ashray Marketing Private Limited
32.	007126	M/s. Ashtha Commercial Private Limited
33.	001291	M/s. Asom Prakashni Private Limited
34.	006754	M/s. Asom Toral Prakritic Gas Company Private Limited
35.	005672	M/s. Assam Aqua Treat Engineering Private Limited
36.	001127	M/s. Assam Bone Mill & Fertilizers Private Limited
37.	001193	M/s. Assam Builders Corpn. Private Limited
38.	001317	M/s. Assam Canvas Crafts Industries Private Limited
39.	001002	M/s. Assam Chemical Industires Private Limited
40.	001644	M/s. Assam Closures Private Limited
41.	002311	M/s. Assam Electro Printing Private Limited
42.	002579	M/s. Assam Ferro Cement Products Private Limited
43.	000984	M/s. Assam Fishery & Dairy Co. Limited
44.	006159	M/s. Assam Hotel Eden Private Limited
45.	001454	M/s. Assam Mines & Minerals Private Limited
46.	006876	M/s. Assam Muga Silk Private Limited
47.	002652	M/s. Assam Physiotherapeutic & Medical Research Centre Private Limited

1	2	3	1	2	3
48.	001260	M/s. Assam Polythene Private Limited	73.	001211	M/s. Brahmaputra Ice & Ice Products Private Limited
49.	001765	M/s. Assam Shoe Manufacturing Co. Private Limited	74.	001069	M/s. Bridge & Building Corpn. Private Limited
50.	006145	M/s. Assam Spokes Private Limited	75.	003407	M/s. Canberra Hotel Private Limited
51.	001404	M/s. Assam Surgical Products Private Limited	76.	001251	M/s. Capital Motors Private Limited
52.	007092	M/s. Assam Swastik Solutions Private Limited	77.	006838	M/s. Careerreach Educational Consultancy Private Limited
53.	003665	M/s. Azonal Credit and Investment Private Limited	78.	007160	M/s. Challengers Multilink Private Limited
54.	002308	M/s. B. and A. Cements Limited	79.	007686	M/s. Cheran Creations & Constructions Private Limited
55.	008161	M/s. B. D. P. Infrastructure Providers Private Limited	80.	001119	M/s. Chinese Engineering Construction Co. Private Limited
56.	007249	M/s. Bajanai Assurance Servicing Centre Private Limited	81.	007472	M/s. Choice Events & Trade Private Limited
57.	001081	M/s. Bajranglal Agarwala & Co. Private Limited	82.	001043	M/s. Choudhuries Private Limited
58.	005754	M/s. Barak Agencies and Services Private Limited	83.	006005	M/s. Coates Information Technology Private Limited
59.	007317	M/s. Barak Infotech Private Limited	84.	007015	M/s. Congregate Marketing Private Limited
60.	002033	M/s. Barooah Agro-Services Private Limited	85.	004174	M/s. Cosmic Agro Private Limited
61.	007507	M/s. Beams Publising Private Limited	86.	008354	M/s. Cosyne Technologies Private Limited
62.	003762	M/s. Betech Engineers India Private Limited	87.	006707	M/s. Daffodile Technology Limited
63.	006658	M/s. Bhanu Flavours Private Limited	88.	002475	M/s. Dams India Private Limited
64.	008142	M/s. Bhuyan Marketing Private Limited	89.	004250	M/s. Danieal Farms Private Limited
65.	001014	M/s. Bimalapore Collieries Private Limited	90.	006577	M/s. Das and Sons Infotech Private Limited
66.	006548	M/s. Biosc Management & Research Meghalaya Private Limited	91.	007615	M/s. David Consultants Private Limited
67.	003354	M/s. Blaze Finance and Investment Limited	92.	003973	M/s. Deltroid Engineers and Consultants Private Limited
68.	001539	M/s. Blue Hills Chemicals Private Limited	93.	006909	M/s. Denizen Consultancy Services Private Limited
69.	008376	M/s. Boffin Laboratories Private Limited	94.	004421	M/s. Desert Spring Traders and Suppliers Private Limited
70.	007202	M/s. Bora Security & Placement Service Private Limited	95.	005425	M/s. Destination North East Tours and Travels Private Limited
71.	007001	M/s. Bordaisilaa Trading Associates Private Limited	96.	000615	M/s. Dhansiri Saw Mills Private Limited
72.	002604	M/s. Brahmaputra Finance and Investments Private Limited	97.	004119	M/s. Dhanvarsa Marketing and Investment Services Private Limited
			98.	005078	M/s. Dhonesh India Private Limited
			99.	005900	M/s. Digital Infosystems Private Limited
			100.	006484	M/s. Dikniyim Constructions & Fabrication Private Limited
			101.	007770	M/s. DMW Construction Private Limited

1	2	3	1	2	3
102.	003844	M/s. Donypolo Cables and Conductors Private Limited	130.	001343	M/s. Gatichitra Private Limited
103.	002976	M/s. Down Town Polypack Private Limited	131.	001861	M/s. Gauhati Enterprises Private Limited
104.	007843	M/s. Durama Cement Private Limited	132.	005660	M/s. GF Assam Tea Company Private Limited
105.	006479	M/s. Dynamo Constuction Private Limited	133.	002277	M/s. Globati Company Private Limited
106.	005511	M/s. Dynasty Construction and Developer Private Limited	134.	007880	M/s. Global Consultancy Services Private Limited
107.	007227	M/s. East Point Tours & Travels Private Limited	135.	001980	M/s. Golaghat Polythene Products Private Limited
108.	005184	M/s. East Zone India Security Private Limited	136.	007144	M/s. Golden Star Marketing Services Private Limited
109.	004510	M/s. Easta Vision Sattelite Network Private Limited	137.	007758	M/s. Goodwill Computech Private Limited
110.	001125	M/s. Eastern Food Products Private Limited	138.	003723	M/s. Great Eastern Tea Company Private Limited
111.	005216	M/s. Eastern Galaxy Services and Consultant Private Limited	139.	003983	M/s. Greener Postures Private Limited
112.	000609	M/s. Eastern Motors Private Limited	140.	006957	M/s. Groomnet Services Private Limited
113.	006374	M/s. Eastern Star Trading Company Private Limited	141.	002278	M/s. Gulmohar Commercial Private Limited
114.	002145	M/s. Eastern Surveyors and Engineers Private Limited	142.	002273	M/s. H. A. R. Trading and Builders Private Limited
115.	008205	M/s. Eight Sisters Consultants Private Limited	143.	006943	M/s. Hecto Marketing Network Private Limited
116.	006615	M/s. Elemel Resorts & Hotels Private Limited	144.	004440	M/s. Hem Computer Private Limited
117.	007884	M/s. Elite Educare Private Limited	145.	002098	M/s. Heals Traders Private Limited
118.	006535	M/s. Engineers Collaborative Private Limited	146.	000994	M/s. Hindustan Traders Private Limited
119.	004172	M/s. Evergreen Agro Farms Private Limited	147.	006009	M/s. HM Tobacco Private Limited
120.	006664	M/s. EW Links Private Limited	148.	006770	M/s. Hooglag Builders Private Limited
121.	006043	M/s. Excel Infosolution India Private Limited	149.	003477	M/s. I. B. Roy Management Consultants Private Limited
122.	002226	M/s. Fogland Hotel Private Limited	150.	007045	M/s. Imperial Network Private Limited
123.	003552	M/s. Frontier Tea Company Private Limited	151.	004072	M/s. In Grow Products Private Limited
124.	008249	M/s. Future Ideas & Marketing Services Private Limited	152.	005825	M/s. Indu Force Security Services Private Limited
125.	002697	M/s. G. C. And Sons Private Limited	153.	002022	M/s. Industries and Construction Private Limited
126.	005150	M/s. Gagansombi Real Estate and Designers Private Limited	154.	007330	M/s. Infotel Systems Private Limited
127.	002624	M/s. Ganapati Tyres Retrading Private Limited	155.	004682	M/s. Jamuna Bheli Finance India Private Limited
128.	003276	M/s. Gango Metals and Steel Private Limited	156.	001249	M/s. Jantra Silpa Private Limited
129.	005331	M/s. Garden Fresh Assam Tea Company Private Limited	157.	002778	M/s. Jai Industries Private Limited
			158.	003163	M/s. Jayantilal and Tara Agency Marketing Private Limited
			159.	008068	M/s. Jeevan Anand Network Marketing Private Limited



1	2	3
160.	004400	M/s. Jimmy Finance and Leasing Co. Private Limited
161.	005758	M/s. K. M. Builders Private Limited
162.	001978	M/s. Kamakhya General Finance & Investment Co. Limited
163.	002870	M/s. Kamakhya Rubber Industries Private Limited
164.	007576	M/s. Kamrup Pharmaceuticals Private Limited
165.	005422	M/s. Kanchenjunga Press Private Limited
166.	004896	M/s. Kapili Hire Purchase Private Limited
167.	004249	M/s. Karan Farms Private Limited
168.	007936	M/s. Kasturi Cane & Bamboo Private Limited
169.	002280	M/s. Kesaria Holdings Private Limited
170.	003569	M/s. Kirata Finance and Investment Company Limited
171.	005617	M/s. Kohima Weaving and Handloom Company Private Limited
172.	001245	M/s. Kokrajhar Talkies Private Limited
173.	004152	M/s. Kumeru Finance and Investment Private Limited
174.	007353	M/s. Kyntiewlang Marketing Private Limited
175.	006610	M/s. Laxa Asha Electronics Private Limited
176.	006540	M/s. LCCS Finance and Investment Private Limited
177.	007054	M/s. Learners Technocom Private Limited
178.	003093	M/s. Life General Finance and Investment Private Limited
179.	006812	M/s. Life Informatics Company Private Limited
180.	008274	M/s. Linknet Services and Marketing Private Limited
181.	004103	M/s. Lucent India Finance and Investment Private Limited
182.	002829	M/s. Luit Laboratories Private Limited
183.	007944	M/s. M D A Marketing Private Limited
184.	006318	M/s. M K Alliance Private Limited
185.	002583	M/s. M M Roadways Private Limited
186.	005636	M/s. MAA Bhawani Tea Private Limited
187.	007080	M/s. Macy Mineral Water Private Limited

1	2	3
188.	001564	M/s. Magnalia Finance & Chit Fund Private Limited
189.	002777	M/s. Mahabir Chilaray Co. Private Limited
190.	004068	M/s. Mak Produce Company Private Limited
191.	001717	M/s. Manipur Chits Savings & Investment Co. Private Limited
192.	008089	M/s. Maruuf Marketing Private Limited
193.	006198	M/s. Mawshynrut Veneer Private Limited
194.	007905	M/s. Meghalaya Calcinates and Chemicals Private Limited
195.	001595	M/s. Meghalaya Phytochemicals Limited
196.	007462	M/s. Mirror Liquor Private Limited
197.	001540	M/s. Mitali Credit & Investment Co. Private Limited
198.	06604	M/s. Mongoloid Security Services Private Limited
199.	007668	M/s. Moon Protection Force Private Limited
200.	008154	M/s. Mount Vision Network Marketing Private Limited
201.	007226	M/s. Mountain Agro Consultants Private Limited
202.	006810	M/s. Mountain Security Services Limited
203.	005148	M/s. Mritunjay Trading Private Limited
204.	005278	M/s. Multiplex Consultants Private Limited
205.	001079	M/s. Murlidhar Agarwalla & Co. Private Limited
206.	003592	M/s. N. C. Hills Rising Plantations Private Limited
207.	006071	M/s. N. E. Impex Consultancy Private Limited
208.	006602	M/s. N. E. Planners & Grovers Private Limited
209.	005873	M/s. N. E. Projects Limited
210.	003901	M/s. N. N. Agro Mac Private Limited
211.	006482	M/s. N. T. Ispat Company Private Limited
212.	005370	M/s. Namsim Developers Private Limited
213.	001657	M/s. Navarun Films Private Limited
214.	008287	M/s. NE-Express Way Carriers Private Limited
215.	008393	M/s. Netbuilt Services Private Limited

1	2	3	1	2	3
216.	002597	M/s. New Assam General Finance and Housing Private Limited	242.	007288	M/s. Polyster Marketing Private Limited
217.	006717	M/s. New Green Foundation Private Limited	243.	004109	M/s. Pragjyotish Real Estate Developers Private Limited
218.	005843	M/s. New Vision Security Services Private Limited	244.	003834	M/s. Premier Consulting Engineers and Architects Private Limited
219.	004339	M/s. Nezone Textiles Private Limited	245.	001630	M/s. Prince Hotels Assam Private Limited
220.	007206	M/s. Niat Infotech Private Limited	246.	001626	M/s. Projects Consultants & Engineers Private Limited
221.	003181	M/s. Nitin Alluminium Indian Private Limited	247.	001588	M/s. Pubaruan Savings & Chits Private Limited
222.	006965	M/s. North East Organic Fertilizer Trading Private Limited	248.	006488	M/s. Racenet Cargo Private Limited
223.	004160	M/s. North East Passengers Safety Services Private Limited	249.	006561	M/s. Raj (Assam) Builders Company Private Limited
224.	006613	M/s. North East Printers Private Limited	250.	001570	M/s. Rajesh Chit Fund Private Limited
225.	005298	M/s. North East Spices Traders India Private Limited	251.	000892	M/s. Ramdhenu Press Private Limited
226.	004070	M/s. North Eastern Agro Farms Private Limited	252.	003064	M/s. Regional Finance and Investment Private Limited
227.	002619	M/s. North Eastern Alloys Private Limited	253.	007140	M/s. Ronabi Construction Private Limited
228.	006691	M/s. North Eastern Development Trade & Commerce Private Limited	254.	007479	M/s. Ruhanzas Consultants Private Limited
229.	007840	M/s. North Eastern Outdoors Media Private Limited	255.	002634	M/s. Rumison Offset Private Limited
230.	002046	M/s. North Eastern Tea Consultancy Private Limited	256.	002435	M/s. Rupali Finance and Industrial Investment Private Limited
231.	001439	M/s. Nulite Finance and Savings Co. Private Limited	257.	001566	M/s. Rupjyoti Chalachitram Private Limited
232.	001239	M/s. Old Friend & Co. Tinsukia Private Limited	258.	005541	M/s. S. M. India Limited
233.	001280	M/s. Pally Unnayana Saungha Cachar Private Limited	259.	000844	M/s. Sahitya Prakash Bhawan Private Limited
234.	005964	M/s. Panthoibi Commerce and Trade Limited	260.	002728	M/s. Sanamisa and Company Private Limited
235.	006752	M/s. Paragon Apartments & Builders Private Limited	261.	006277	M/s. Saraighat Consumers Goods Private Limited
236.	006237	M/s. Pawans Cigarettes Private Limited	262.	007598	M/s. Sarbodaya Real Estate Private Limited
237.	005047	M/s. Peace Housing & Finance Co. Limited	263.	001690	M/s. Sati Enterprises Private Limited
238.	005269	M/s. Phanidhar Gogoi PG Constructions Private Limited	264.	007486	M/s. Sawaiom Marketing Private Limited
239.	006789	M/s. Pheros Steels Private Limited	265.	002279	M/s. Sea Sky Holdings Private Limited
240.	001431	M/s. Polyfab India Private Limited	266.	004071	M/s. Senapati Agriculture Produce Company Private Limited
241.	007120	M/s. Plutus Marketing Private Limited	267.	008127	M/s. Shaheli Network Private Limited
			268.	006763	M/s. Shree Entrade Private Limited
			269.	006508	M/s. Silverstone Ferro Alloys Private Limited
			270.	008257	M/s. Skylimit Security and Placement Services Private Limited
			271.	007701	M/s. Slievers Agri-Biotech Private Limited

1	2	3
272.	004906	M/s. SMDA Engineers and Project Consultants Private Limited
273.	007380	M/s. Sonitpur Security Service Private Limited
274.	001220	M/s. Standard Drug & Medical Enterprise Private Limited
275.	003817	M/s. Standard Financial Services Private Limited
276.	007475	M/s. Steelwell Security Services Private Limited
277.	006259	M/s. Stern (India) Plantation & Marketing Private Limited
278.	006643	M/s. Sukla Plasters Meghalaya Private Limited
279.	006756	M/s. Survivor Services Private Limited
280.	002772	M/s. Swift Tea Services Private Limited
281.	001011	M/s. T. C. Chand & Sons Private Limited
282.	002184	M/s. Taito Timber Works Private Limited
283.	006641	M/s. Tanvie Road Carriers Private Limited
284.	000474	M/s. Tezpur Electirc & Engineering Co. Private Limited
285.	003846	M/s. Tragopan Steels Private Limited
286.	004693	M/s. Trg Computer Consultants Private Limited
287.	006554	M/s. Tsurang Valley Tea Company Private Limited
288.	007976	M/s. Udayman Security Services & Consultancy Private Limited
289.	007405	M/s. Umdamli Minerals Private Limited
290.	003990	M/s. Unicorn Structures and Designs Private Limited
291.	006696	M/s. United Effort Company Private Limited
292.	002200	M/s. Unokoti Plantations and Development Co. Private Limited
293.	002753	M/s. Vashisht Instrumentations Private Limited
294.	005884	M/s. Venus Force Security Services Private Limited
295.	005624	M/s. Vidisha Institute of Management Studies Private Limited
296.	002281	M/s. Vidula Finance Private Limited
297.	005520	M/s. Vistaar Cements Private Limited
298.	007895	M/s. Wens Marketing Private Limited

1	2	3
299.	004288	M/s. Young Printers and Publishers Assam Private Limited
300.	005435	M/s. Zenith Builders and Promoters Private Limited
301.	003301	M/s. Dr. B. K. Jalan and Others Private Limited
302.	005362	M/s. Aay Key Associats Private Limited
303.	007036	M/s. Abhilashaa Merchants Private Limited
304.	004024	M/s. AC and Associates Private Limited
305.	003731	M/s. Achyut Textiles Private Limited
306.	004733	M/s. Aditya Softwares Private Limited
307.	007409	M/s. Agartala Marketing Private Limited
308.	007851	M/s. Alicon Medicine Private Limited
309.	001873	M/s. Amon and Company Private Limited
310.	004814	M/s. Ankit Entrade Private Limited
311.	006744	M/s. Aqua Networks Private Limited
312.	007457	M/s. Arnob-Anamika Akash Trading Company Private Limited
313.	006288	M/s. Arunachal Builders and Hydro Power Company Private Limited
314.	007386	M/s. Asom Pragati Infrastructure Limited
315.	007109	M/s. Assam Bakes N Cakes Associates Private Limited
316.	002415	M/s. Assam Commercial and Leasing (India) Private Limited
317.	002492	M/s. Assam Hauliers Private Limited
318.	002456	M/s. Assam Manipur Carriers Private Limited
319.	004117	M/s. Assam Methanol Limited
320.	000990	M/s. Assam Sillimanite Private Limited
321.	007911	M/s. Assam Smart Card Private Limited
322.	003043	M/s. Assam Valley Travels Private Limited
323.	002820	M/s. Assam Zinkote Limited
324.	005273	M/s. Avinandan Apartments Private Limited
325.	005857	M/s. AVM Tobacco Company Private Limited
326.	003930	M/s. B. R. Industries Limited
327.	004540	M/s. B. R. Fincap Private Limited
328.	004383	M/s. Baba Securities Limited
329.	006813	M/s. Baks Marketing Private Limited

1	2	3
330.	005309	M/s. Banjop Canbam Private Limited
331.	006120	M/s. Bansidham Tea Compnay Private Limited
332.	004124	M/s. Barail Finance and Investment Private Limited
333.	005021	M/s. BDS Pharma Private Limited
334.	002605	M/s. Bhartiya Scrap Industries Private Limited
335.	004484	M/s. Bhavana Entrade Private Limited
336.	007626	M/s. Bitong Sangtam Builders Private Limited
337.	007625	M/s. Bitong Sangtam Medical Diagnostic Centre Private Limited
338.	004517	M/s. Bohagi Finance and Investment Limited
339.	003074	M/s. Bohra Projects Private Limited
340.	004327	M/s. Brahmaputra Agricultural Machineries Private Limited
341.	003433	M/s. Brahmaputra Consumer Products Private Limited
342.	003798	M/s. Bright Stores and Enterprises Private Limited
343.	003939	M/s. Brightex Finance and Leasing Limited
344.	002618	M/s. Burakia Udyog Private Limited
345.	003011	M/s. Central India Finance and Investment Limited
346.	004700	M/s. Century Properties Private Limited
347.	003456	M/s. Chatrapati Pandey Construction Private Limited
348.	003540	M/s. Chipstone Construction Company Private Limited

G C. YADAV  
Registrar of Companies  
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhaskarya Real Estate Private Limited

Shillong-793001, the 20th June 2011

No. RoC/SH/560(5)/938—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhaskarya Real Estate Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trident Security Services Private Limited

Shillong-793001, the 13th June 2011

No. RoC/SH/560(5)/939—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trident Security Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Royal Resin India Private Limited

Shillong-793001, the 13th June 2011

No. RoC/SH/560(5)/940—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Royal Resin India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manipur State Power Development Corporation  
Private Limited

Shillong-793001, the 13th June 2011

No. RoC/SH/560(5)/941—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manipur State Power Development Corporation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Purba Coal Sales Private Limited

Shillong-793001, the 13th June 2011

No. RoC/SH/560(5)/942—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Purba Coal Sales Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Assam Ispat Limited

Shillong-793001, the 13th June 2011

No. RoC/SH/560(5)/943—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Assam Ispat Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY

Asstt. Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Chennai, the 7th July 2011

No. 65 to 66896/560(5)/EES/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Registration No.	Name of the Company
1	2	3
1.	00065	M/s. Andaman & Nicobar Technology Lab Private Limited
2.	01650	M/s. Mayuram Motors Private Limited
3.	02149	M/s. Popular Automobiles Private Limited
4.	02320	M/s. Rajapalayam Trading & Finance Co. Private Limited
5.	02381	M/s. South India Export Co. Private Limited
6.	06977	M/s. Sieco Finished Leathers Private Limited
7.	07364	M/s. Apex Rubber Private Limited
8.	08093	M/s. V. Fill Private Limited
9.	08436	M/s. Precision Fluid Seals Limited
10.	10447	M/s. Trans Projects Eastern Private Limited
11.	10742	M/s. Neetu Autos Private Limited
12.	11093	M/s. Kumbakonam Bottling Company Private Limited
13.	11476	M/s. Vijaya Pesticides (Madras) Private Limited
14.	11535	M/s. Daffodils Investments Private Limited
15.	12524	M/s. Arlav Elektroniks Private Limited
16.	12603	M/s. Ranka Pharmaceuticals Private Limited

1	2	3
17.	12896	M/s. Paramount Gensets Industries Private Limited
18.	12910	M/s. Rasp Services and Finance Limited
19.	12935	M/s. Ranka S. (Madras) Private Limited
20.	14843	M/s. R. S. M. Electronics Private Limited
21.	15406	M/s. Data Quest Infotech and Enterprises Limited
22.	15428	M/s. Kurien E. Kalathil & Associates Private Limited
23.	15492	M/s. U-Rent Services Private Limited
24.	15714	M/s. Mercury Chlorates Private Limited
25.	15772	M/s. Office Care Systems Private Limited
26.	15881	M/s. Kalyani Auto Sales and Service (Madurai) Private Limited
27.	16945	M/s. Sieco Cargo Services Private Limited
28.	17699	M/s. Rilisar Industrial Information Network Private Limited
29.	18140	M/s. Sri Krishna Diesel Engineers Private Limited
30.	18218	M/s. Namaha Leathers Private Limited
31.	18223	M/s. Shriram Chits Chennai Private Limited
32.	18845	M/s. Portfolio Communications Private Limited
33.	18966	M/s. Prabu Finance & Leasing Limited
34.	19188	M/s. Mideast Electronics Private Limited
35.	19614	M/s. Lakshmi-Soundra Investments Private Limited
36.	20934	M/s. Supreme Weldrods Private Limited
37.	21168	M/s. Srivatsa Properties and Holdings Private Limited
38.	21320	M/s. Thirunagar Benefit Fund (Madras) Limited
39.	21402	M/s. Balpad Consultants Private Limited
40.	21799	M/s. Nagarathar Finance and Leasing Private Limited
41.	21866	M/s. Visaka Consultancy Services Private Limited
42.	22395	M/s. T. N. K. V. Holdings Private Limited
43.	22419	M/s. Sieco Cargo Services (North India) Private Limited
44.	22698	M/s. Haswon Eximp Private Limited
45.	22811	M/s. Century Fruit Company Limited

1	2	3	1	2	3
46.	23081	M/s. Naina Glues & Chemicals Private Limited	76.	29682	M/s. Madras Communication Network Private Limited
47.	23250	M/s. Pillaiyarpattiar Chit Private Limited	77.	29789	M/s. King Traders Private Limited
48.	23295	M/s. Sri Kailaya Vinayagar Benefit Fund Limited	78.	29941	M/s. Saravanan Auto Works Private Limited
49.	24063	M/s. Anchortex Fashions Private Limited	79.	30039	M/s. Antriksh Securities Private Limited
50.	24072	M/s. Upper India Trading Company (Madras) Private Limited	80.	30802	M/s. Blue Aqua Harvest Limited
51.	24180	M/s. Bright Knitwear Private Limited	81.	30949	M/s. Fortune Valley Agro Farms Private Limited
52.	24319	M/s. Stone Haus India Private Limited	82.	30963	M/s. Tri-Sakthi Energy Private Limited
53.	24499	M/s. Far East Properties Private Limited	83.	31451	M/s. Vinit Finance and Investments Private Limited
54.	24797	M/s. Arwin Overseas Private Limited	84.	31463	M/s. Rokada Finance and Investments Private Limited
55.	24879	M/s. Premier Engineers and Builders India Limited	85.	31465	M/s. Hari Ramajayam Benefit Fund Limited
56.	25096	M/s. H. K. Leather Industries Private Limited	86.	31501	M/s. Trinity Global Finance Limited
57.	25536	M/s. Maaran Builders Private Limited	87.	31592	M/s. Kay Jey Wires Private Limited
58.	26101	M/s. Hermitage Resorts Private Limited	88.	31962	M/s. Krish Financial Services Private Limited
59.	26166	M/s. Ampuchiya Plantations (Tamilnadu) Private Limited	89.	32039	M/s. Peroxy Investments Private Limited
60.	26215	M/s. SRA Technologies Private Limited	90.	32040	M/s. Penta Securities Private Limited
61.	26540	M/s. Advanced Information Services Private Limited	91.	32086	M/s. GNS Consultancy Services Private Limited
62.	26947	M/s. Amman Aarul Chit Fund Private Limited	92.	32170	M/s. K. R. Shares & Stock Brokers Private Limited
63.	27181	M/s. Prabu Chits Private Limited	93.	32463	M/s. Five Flower Finance and Investments Private Limited
64.	27485	M/s. Ganesh Office Automotion Private Limited	94.	32601	M/s. Lawrence Builders Hardware Private Limited
65.	27833	M/s. Magam Investments Private Limited	95.	32738	M/s. Ahana Consultants Private Limited
66.	28682	M/s. Peetee Steel Tubes Limited	96.	32775	M/s. Taipan Financial Services Private Limited
67.	28733	M/s. Vam Aquamarine Private Limited	97.	33256	M/s. Kathir Finance Limited
68.	28766	M/s. Ananth Securities Private Limited	98.	33690	M/s. Tanigsteel Rolling Mills Private Limited
69.	29074	M/s. CCC Benefit Fund Limited	99.	33856	M/s. Commodities Trading Company India Private Limited
70.	29314	M/s. Emcee Fabritech Private Limited	100.	33980	M/s. Palmer Techsoft Private Limited
71.	29338	M/s. Calai Communications Private Limited	101.	34019	M/s. Real Value Housing Madras Private Limited
72.	29343	M/s. New India Freight Company Private Limited	102.	34135	M/s. APL Logistics Private Limited
73.	29414	M/s. Sri Umalakshmi Spinners Private Limited	103.	34504	M/s. Hi-Tech Weather Makers Private Limited
74.	29504	M/s. Sakthi Marine Exports Private Limited			
75.	29532	M/s. Media Innovations & Systems Private Limited			

1	2	3
104.	34681	M/s. Sun Nagercoil Finance and Investments Private Limited
105.	35249	M/s. Gemini Publications Private Limited
106.	35431	M/s. Shree Marutis Confectionery Private Limited
107.	35470	M/s. Nitya Chits Private Limited
108.	35488	M/s. Buvaneswari Property Developers Private Limited
109.	35641	M/s. Orchard Microsystems Limited
110.	35655	M/s. Merigold Marketing Services Private Limited
111.	35677	M/s. Jai Govind Poly Tex Private Limited
112.	35792	M/s. St. Thomas Chit Funds Private Limited
113.	35852	M/s. Streams Informatics Private Limited
114.	35936	M/s. Larich Foods India Private Limited
115.	36211	M/s. Gourmet Foods Private Limited
116.	36366	M/s. New Tech Forging Private Limited
117.	37062	M/s. Janus Communications Private Limited
118.	37068	M/s. Dhanvridhi Advisors Private Limited
119.	37073	M/s. Aaron Electronics Private Limited
120.	37117	M/s. Sri Balakrishna Chitfunds Private Limited
121.	37174	M/s. Green & Smart (India) Private Limited
122.	37181	M/s. Sathyanarayana Enterprises Private Limited
123.	37304	M/s. Monalisa Network Private Limited
124.	37526	M/s. Shree Paduka Financial Services Private Limited
125.	37596	M/s. Yanai Mugan Chits Private Limited
126.	38094	M/s. Avatar Information Systems Private Limited
127.	38172	M/s. CVM Maintenance Consultants Private Limited
128.	38287	M/s. Fuser Graphics Private Limited
129.	38429	M/s. Signet Systems (Madras) Private Limited
130.	38432	M/s. MCIH Instruments Private Limited
131.	38680	M/s. Viswamelu Builders Private Limited
132.	38893	M/s. G. K. Tank & Equipment Private Limited

1	2	3
133.	38947	M/s. Essay Tours and Travels Private Limited
134.	38953	M/s. Skylink Communications (Chennai) Private Limited
135.	38971	M/s. Siva Plastics Private Limited
136.	39114	M/s. Mansen Engineering Private Limited
137.	39204	M/s. Pick & Wear Fashions Private Limited
138.	39230	M/s. Shri Nagur Foundations Private Limited
139.	39287	M/s. Windom Publishing Private Limited
140.	39946	M/s. Aarrow Forwarders Private Limited
141.	40054	M/s. Silver Wings Aviation & Training Private Limited
142.	40100	M/s. Indofip Piping Systems Private Limited
143.	40184	M/s. Akshaya Pathra Private Limited
144.	40562	M/s. Mahasakthi Shares Private Limited
145.	40567	M/s. Swatee Systems Private Limited
146.	40610	M/s. Susima Technologies Private Limited
147.	40738	M/s. Marygreen Agrotech Private Limited
148.	40755	M/s. Techmo Metal Processing Private Limited
149.	41106	M/s. Debug Network Solutions Private Limited
150.	41333	M/s. Macer Tech Engineering Private Limited
151.	41391	M/s. Uttara Management Services Private Limited
152.	41865	M/s. Perry Marketing Private Limited
153.	41895	M/s. Erode Power Corporation Limited
154.	42079	M/s. Intracity Services Private Limited
155.	42155	M/s. Azhagu Pharma Private Limited
156.	42401	M/s. Harmonic Power Engineering Private Limited
157.	42625	M/s. Camac Software Systems Private Limited
158.	42890	M/s. Akva Marketing Limited
159.	43062	M/s. Datamax Infoway Private Limited
160.	43235	M/s. MGM Informatics Private Limited
161.	43240	M/s. N.R.K. Exim Trades Private Limited
162.	43412	M/s. Karma Information Technologies Private Limited

1	2	3	1	2	3
163.	43592	M/s. Ashwin Exports Private Limited	191.	48642	M/s. Chennai Oushadha Trading Private Limited
164.	43709	M/s. Modi's Extrusions & Accessories Private Limited	192.	48759	M/s. Friendly Call Taxi Private Limited
165.	43884	M/s. BVS Engineering Private Limited	193.	48865	M/s. Pracharak Technologies Private Limited
166.	43897	M/s. Proactive Decisions Limited	194.	48919	M/s. A.K. Remedies Private Limited
167.	44114	M/s. Sunmax Chemicals (Ranipet) Private Limited	195.	48981	M/s. Lodha Infotech Private Limited
168.	44153	M/s. Shri Parimk Technologies Private Limited	196.	49115	M/s. Duseja Developers Private Limited
169.	44205	M/s. Stitch 'N' Fix India Private Limited	197.	49227	M/s. Prime Cargo Private Limited.
170.	44379	M/s. Ceedeeyes Super Shopee Private Limited	198.	49243	M/s. Mind Associates Software Private Limited
171.	44397	M/s. Cybertran Software Services Private Limited	199.	49366	M/s. R.K.V. Chit Funds Private Limited
172.	44546	M/s. Santel Communications Private Limited	200.	49588	M/s. Schon Collections Private Limited
173.	44603	M/s. Winall Trading Company Private Limited	201.	49714	M/s. Thaamarai Exim Private Limited
174.	44752	M/s. Watts Humphrey Software Quality Institute Private Limited	202.	49831	M/s. P.R.B. Impex Private Limited
175.	45759	M/s. CIIT Infotech Private Limited	203.	50276	M/s. Hambros Investments Private Limited
176.	45948	M/s. Vensys Technologies Private Limited	204.	50369	M/s. Shree Baven Trades Private Limited
177.	46027	M/s. Guan Guan Marine Products Company Private Limited	205.	50449	M/s. Shasun India Research Foundation & Knowledge Management Centre Private Limited
178.	46070	M/s. Samrat Tower Consultants Private Limited	206.	50457	M/s. Surftrans Private Limited
179.	46153	M/s. Kumari United Networks Private Limited	207.	50706	M/s. Aravindh Herbals India Private Limited
180.	46439	M/s. Chainvalue Technologies Private Limited	208.	50707	M/s. Extend APT Solutions Private Limited
181.	46492	M/s. ACE Cold Storage Private Limited	209.	50734	M/s. Sun & Shine Impex (Chennai) Private Limited
182.	46619	M/s. Exzient Consulting Services Private Limited	210.	51182	M/s. Prana Infotech Private Limited
183.	46688	M/s. Indespa Metal Components Private Limited	211.	51247	M/s. Vee Sky Engineers & Consultants Private Limited
184.	46892	M/s. B.I.T. Freight Express India Private Limited	212.	51298	M/s. Biomines Research Solutions Private Limited
185.	46915	M/s. Hash 1 Software Private Limited	213.	51332	M/s. M.G.M. Marry Brown Family Restaurants (India) Private Limited
186.	47226	M/s. Pride Inn Private Limited	214.	51772	M/s. Goenka Education Services Private Limited
187.	47293	M/s. Arteri Design Private Limited	215.	51984	M/s. PTK Fab Private Limited
188.	47803	M/s. Pallav Shelters (India) Private Limited	216.	52071	M/s. Vije Insurance Management Private Limited
189.	48007	M/s. Sree Lakshmi Prasanna Movies Private Limited	217.	52331	M/s. SS Kosmic Aqua Services Private Limited
190.	48234	M/s. Manarkg Agrotech Management Private Limited	218.	52377	M/s. Jove Tradex Private Limited
			219.	52396	M/s. Four-G Technologies Private Limited



1	2	3	1	2	3
220.	52452	M/s. Integrated Design Tools India Private Limited	248.	55078	M/s. Safetrack Tours and Travels Private Limited
221.	52606	M/s. Tvaritaa Softtech Private Limited	249.	55141	M/s. Wevsciential Solutions Private Limited
222.	52640	M/s. Srishti Systems & Solutions Private Limited	250.	55322	M/s. Centromeric Software Private Limited
223.	52645	M/s. ORO Plata Food Private Limited	251.	55515	M/s. A.M. Shoes and Soles Private Limited
224.	52650	M/s. Sampoorana Power Company Limited	252.	55623	M/s. Veeyesare Infrastructures & Hotels Private Limited
225.	53017	M/s. Royal Infotech Private Limited	253.	55696	M/s. Pryudhvi Biotech Pharmaceuticals Private Limited
226.	53047	M/s. Kevin Decors Private Limited	254.	55697	M/s. Bripac Overseas Private Limited
227.	53275	M/s. Sun Itech Telecom & Network Private Limited	255.	55713	M/s. Airline Cargo Resources India Private Limited
228.	53297	M/s. Dheerkkaayush Marketing Private Limited	256.	55754	M/s. Annai Fabric Private Limited
229.	53466	M/s. Rameshbabu Productions Private Limited	257.	55781	M/s. Capri Budgetax Services Private Limited
230.	53530	M/s. Marksman Marketing Services Private Limited	258.	55920	M/s. Precision Press Products Private Limited
231.	53956	M/s. Advanced Construction Services Private Limited	259.	55952	M/s. Sairam Refrigeration Private Limited
232.	53972	M/s. Liqui Exports & Imports Private Limited	260.	55956	M/s. Stream Line Freight Services Private Limited
233.	54112	M/s. Ambienti Textiles Company Private Limited	261.	56138	M/s. K2 Property Managers Private Limited
234.	54370	M/s. Fusion Trans Agencies Private Limited	262.	56371	M/s. UNI Logistics Private Limited
235.	54440	M/s. Sri Lakshmi Developers Private Limited	263.	56378	M/s. Capri Halcyon Research Services Private Limited
236.	54536	M/s. Anek Agro Private Limited	264.	56596	M/s. Coral Diagnostics Private Limited
237.	54591	M/s. Rana Securities Private Limited	265.	56782	M/s. Mahashakthi Commodity Enterprises Private Limited
238.	54646	M/s. VCL Electronics Services (India) Private Limited	266.	56824	M/s. Yasvant Instrumentation Private Limited
239.	54680	M/s. Jayavelu Textiles Export Private Limited	267.	56840	M/s. Neha Processing Services Private Limited
240.	54712	M/s. Chungking Infotech Private Limited	268.	56865	M/s. Pantai Medivest (India) Private Limited
241.	54751	M/s. Annai PVC Products Private Limited	269.	56898	M/s. S.V. Infrastructures Private Limited
242.	54765	M/s. Chellamaii Celluloids Private Limited	270.	56963	M/s. AFF Academic Support Services Private Limited
243.	54805	M/s. Manish Kumar Real Estate Private Limited	271.	56995	M/s. Bluewave Infotech Private Limited
244.	54860	M/s. Charli Solutions Private Limited	272.	57010	M/s. Hygiene Edible Products Private Limited
245.	54884	M/s. KJK Diamond Innovations Private Limited	273.	57096	M/s. Databases Technology Private Limited
246.	55051	M/s. P.K. Iyer Ventures Private Limited			
247.	55052	M/s. Srinidhi Ventures Private Limited			

1	2	3	1	2	3
274.	57393	M/s. Saicom Infosystems Private Limited	302.	60082	M/s. TL Foods Private Limited
275.	57400	M/s. P.R.C. Silks Private Limited	303.	60097	M/s. N. H. Creations Private Limited
276.	57428	M/s. Ashtalakshmi Agricultural Farms Private Limited	304.	60325	M/s. Replete Solutions Private Limited
277.	57444	M/s. Mahalakshmi Horticultural Private Limited	305.	60331	M/s. ED Coatings Private Limited
278.	57445	M/s. Third Eye Management Consultants Private Limited	306.	60342	M/s. Willdo Tech Solutions Private Limited
279.	57667	M/s. E-Spade Greenfield Ventures Private Limited	307.	60352	M/s. Richie Rich Realities Private Limited
280.	57716	M/s. United Aviation Lubes Private Limited	308.	60566	M/s. Alpha Interlink Tours and Travels Private Limited
281.	57734	M/s. Remo Plastics Private Limited	309.	61044	M/s. G. A. Consultants Private Limited
282.	57832	M/s. Kolls India Apparels Private Limited	310.	61120	M/s. Danush Interiors Private Limited
283.	57997	M/s. KGC Builders & Developers Limited	311.	61128	M/s. G. M. Shelters Private Limited
284.	58116	M/s. RKS Info Services Private Limited	312.	61205	M/s. NRK Engineers Private Limited
285.	58153	M/s. Micronfit Technologies Private Limited	313.	61258	M/s. Ebac Water Coolers Private Limited
286.	58269	M/s. Madurai Systems and Softwares Private Limited	314.	61310	M/s. Kotex Spinning Mills Private Limited
287.	58576	M/s. K-Power Software Private Limited	315.	61374	M/s. Goldplus Apparel Private Limited
288.	58692	M/s. Sri Mokambika Agricultural Farms Private Limited	316.	61409	M/s. Scholar Consulting Private Limited
289.	58693	M/s. Aishwarya Lakshmi Horticulture Farms Private Limited	317.	61438	M/s. Pausen Prasha Infotech Private Limited
290.	58802	M/s. Marsun Technologies (India) Private Limited	318.	61510	M/s. Omni Wireless Systems Private Limited
291.	59006	M/s. Mac Plantations Limited	319.	61535	M/s. ETA Elevator Industrial Company Private Limited
292.	59070	M/s. Vincent Sea Foods Private Limited	320.	61610	M/s. Intellect Education Private Limited
293.	59087	M/s. ACT Automobiles India Limited	321.	62062	M/s. ST Cyber Technologies (India) Private Limited
294.	59227	M/s. Modern Shipping Transport and Trading Company Private Limited	322.	62084	M/s. Karur Standard Home Textiles Private Limited
295.	59244	M/s. Express Mail and Cargo (India) Private Limited	323.	62259	M/s. Forever Holdings and Real Estates Private Limited
296.	59369	M/s. Kat Greenfield Ventures Private Limited	324.	62281	M/s. GKC Outsourcing Services Private Limited
297.	59485	M/s. Vrudhi Tradings Private Limited	325.	62472	M/s. Blue C Technologies Private Limited
298.	59554	M/s. Clean-O-Man Services Private Limited	326.	62519	M/s. Shan Med Care Services Private Limited
299.	59727	M/s. E-Edit Solutions Limited	327.	62614	M/s. Blue Kats Technologies Private Limited
300.	59868	M/s. Bascon Projects Private Limited	328.	62760	M/s. Annai Polythene Manufacturing Company Private Limited
301.	60023	M/s. Ace Workforce Private Limited	329.	62795	M/s. Accurate Overseas Training Centre Private Limited
			330.	63096	M/s. CFL Chain Freight Logistics Private Limited

1	2	3
331.	63184	M/s. V. S. N. C. Home Textile Private Limited
332.	63240	M/s. SCM Heavy Equipment India Private Limited
333.	63645	M/s. LE Softrons Private Limited
334.	63651	M/s. Octillion Technology Private Limited
335.	63710	M/s. Manish Solutions Private Limited
336.	63844	M/s. DA Infosystems Private Limited
337.	63876	M/s. Max Medical Consultancy Services Private Limited
338.	64031	M/s. Phoenix Spacet Tech Entertainments Private Limited
339.	64114	M/s. Quasar Seafood India Private Limited
340.	64171	M/s. Shiva S. S. Coils Private Limited
341.	64210	M/s. Switch Software Solutions India Private Limited
342.	64217	M/s. Faondemand Technologies Private Limited
343.	64468	M/s. Integrated Cables Private Limited
344.	64557	M/s. Saina Shoes Private Limited
345.	64582	M/s. Aptus Impex Private Limited

1	2	3
346.	64660	M/s. Alfa Label & Packing Solutions Private Limited
347.	65040	M/s. Infiniti Retail Ventures Limited
348.	65235	M/s. Citi Agro Products Private Limited
349.	65369	M/s. Krishway Consulting Private Limited
350.	65531	M/s. B2V Foods Private Limited
351.	65869	M/s. SMJ Engineering Services and Consultancy Private Limited
352.	65986	M/s. CWB Logistic Consultants Private Limited
353.	65996	M/s. Sanved Research Labs Private Limited
354.	66346	M/s. Sreevartta Publications Private Limited
355.	66361	M/s. Madurai Eco Electro Plating Park Private Limited
356.	66508	M/s. NH Fashion Private Limited
357.	66546	M/s. Milano Plantations Private Limited
358.	66896	M/s. Avenues Connect Recruitment Services Private Limited

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu